



**ORANGE COUNTY
REGISTRAR OF VOTERS**

चुनाव प्रशासन योजना 2026-2029



विषयसूची

मिशन स्टेटमेंट.....	6
विज़न स्टेटमेंट.....	6
2026-2029 चुनाव प्रशासन योजना प्रतिबद्धताएँ.....	7
मतदाता शिक्षा और आउटरीच योजना	13
मीडिया उपयोग	13
भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों की सेवा करने वाले मीडिया का उपयोग, उन्हें आगामी चुनाव के बारे में सूचित करना, और टोल-फ्री हॉटलाइन का उपयोग	13
मीडिया का उपयोग, मतदाताओं को डाक द्वारा मतदान मतपत्र की उपलब्धता और अनुरोध की प्रक्रिया के बारे में सूचित करना.....	14
सामुदायिक सहभागिता	14
VCA के प्रावधानों के बारे में मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए सामुदायिक उपस्थिति.....	14
सुलभ वेबसाइट जानकारी	14
OCROV की वेबसाइट पर पहुँच संबंधी जानकारी.....	14
भाषाई अल्पसंख्यक मतदाताओं की पहचान.....	15
भाषाई अल्पसंख्यक मतदाताओं की पहचान करने के लिए प्रयुक्त पद्धति.....	15
शिक्षा और प्रावधानों का सार्वजनिक संचार	15
जनता से संवाद, जिसमें शामिल हैं:.....	15
संसाधनों का आवंटन	16
मतदाता शिक्षा और आउटरीच पर काउंटी आवश्यक संसाधनों को कैसे खर्च करेगी, इस पर एक विस्तृत बजट.....	16
सार्वजनिक सेवा घोषणाएँ (PSAs).....	17
कम से कम एक सार्वजनिक सुरक्षा सेवा (PSA), जो सभी भाषाओं में मतदाताओं को सेवा प्रदान करे.....	17
मतदाताओं से सीधा संपर्क	17
मतदाताओं के साथ कम से कम दो प्रत्यक्ष संपर्क	17
डाक द्वारा मतदान की सुविधा	19
विकलांग मतदाताओं के लिए रिक्त या प्रतिस्थापन योग्य डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र का अनुरोध करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया	19

असमानताओं को संबोधित करना	20
आवश्यक रिपोर्टों में पहचानी गई मतदाता पहुंच और भागीदारी संबंधी असमानताओं को दूर करने की योजना	20
मतदान केंद्र सुरक्षा	22
सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीके और मानक	22
मतदान प्रणाली सुरक्षा	22
इलेक्ट्रॉनिक मतदान पुस्तकें	23
चुनाव लागत	25
पिछले समान चुनावों की तुलना में अनुमानित अल्पकालिक और दीर्घकालिक लागत और बचत	25
मतदान केंद्र और ड्रॉपऑफ़ स्थान का विवरण	26
संख्या और स्थान डेटा	26
मतदान केंद्रों की कुल संख्या	26
मतपत्र ड्रॉपऑफ़ स्थानों की कुल संख्या	27
प्रत्येक मतदान केंद्र का स्थान और नक्शा	28
शल्य चिकित्सा के घंटे	29
मतपत्र डालने के स्थानों के संचालन के घंटे	30
सुरक्षा और आकस्मिक योजनाएँ	30
मतदान केंद्रों पर व्यवधानों को रोकना और व्यवधान होने पर चुनाव की निरंतरता सुनिश्चित करना	30
चुनाव स्टाफिंग	31
चुनाव बोर्ड के सदस्यों की संख्या	31
द्विभाषी चुनाव बोर्ड के सदस्यों की संख्या और बोली जाने वाली भाषाएँ	31
विकलांगता सेवाएं	32
सामान्य सेवाएं प्रदान की गईं, जिनमें उचित संशोधन और सुलभ मतदान मशीनें शामिल हैं	32
मतदान केंद्र का डिज़ाइन	33
मतदाता की गोपनीयता और मतपत्र की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उपकरणों का लेआउट और प्लेसमेंट	33
मतदाता सहायता हॉटलाइन	34
टोल-फ्री और सुलभ मतदाता हेल्पलाइन, भाषा समर्थन के साथ	34

परिशिष्ट A	35
EAP सामुदायिक कार्यशालाओं का फ़्लायर	35
छोटा समूह बैठकें	36
परिशिष्ट B	37
मतदाताओं को भेजे गए नमूना पोस्टकार्ड	37
परिशिष्ट C	38
वोट केंद्र मानदंड रैंकिंग	38
उपयुक्तता मैट्रिक्स (केवल उदाहरण).....	39
परिशिष्ट D	40
2024 के राष्ट्रपति आम चुनाव के लिए मतदान केंद्रों की सूची	40
2024 के राष्ट्रपति आम चुनाव के मतदान केंद्रों का नक्शा.....	47
परिशिष्ट E	48
2024 के राष्ट्रपति आम चुनाव के लिए मतपत्र ड्रॉप बॉक्स स्थानों की सूची	48
2024 के राष्ट्रपति आम चुनाव के मतपत्र ड्रॉप बॉक्स का नक्शा.....	53
परिशिष्ट F.....	54
मतपत्र ड्रॉप बॉक्स सुरक्षा और पहुंच	54
सुरक्षा सुविधाएँ.....	54
पहुँच सुविधाएँ.....	55
परिशिष्ट G	56
2024 आम चुनाव – तिथि के अनुसार व्यक्तिगत मतदान	56
प्रति घंटा उपस्थिति – पहले सात दिन.....	56
कुल प्रति घंटा उपस्थिति – अंतिम शनिवार से सोमवार तक	57
परिशिष्ट H	58
चुनाव प्रशासन योजना अद्यतन: सार्वजनिक इनपुट प्रक्रिया	58
परिचय	58
प्रतिक्रिया प्रदान करने के तरीके	59
सामुदायिक कार्यशालाओं को बढ़ावा देने के लिए आउटरीच	62
सार्वजनिक प्रतिक्रिया का सारांश	63
परिशिष्ट I.....	68

2024 के राष्ट्रपति आम चुनाव में द्विभाषी CSR	68
चीनी	68
कोरियन.....	68
स्पेनिश.....	69
विएतनामीज़.....	71
चुनाव संहिता धारा 14201 द्वारा परिभाषित भाषाओं में द्विभाषी CSR वाले मतदान केंद्र	72
परिशिष्ट J	73
मतदान केंद्र लेआउट (उदाहरण).....	73
परिशिष्ट K	74
चुनाव प्रशासन योजना का मसौदा: सार्वजनिक टिप्पणियाँ	74
परिचय	74
सार्वजनिक टिप्पणियाँ प्राप्त करने के तरीके.....	74
EAP से सीधे संबंधित न होने वाली टिप्पणियों का सारांश	74
EAP से संबंधित टिप्पणियों का सारांश.....	78
विस्तृत सार्वजनिक टिप्पणियाँ.....	79
परिशिष्ट L.....	80
चुनाव संहिता संदर्भ (जानबूझकर अनुवादित नहीं किए गए कोड).....	80
§303.3	80
§2550(b).....	80
§3000.5	80
§3016.7	80
§4005(a)(1)(a).....	80
§4005(a)(1)(B).....	81
§4005(a)(2)(A)(v)	81
§4005(a)(2)(B).....	81
§4005(a)(3)	81
§4005(a)(3)(A).....	81
§4005(a)(4)	82
§4005(a)(4)(A).....	82
§4005(a)(4)(D)	82
§4005(a)(6)(B)(i)	82
§4005(a)(8)(B)(ii).....	82
§4005(a)(9)(A).....	82
§4005(a)(10)(B).....	83

§4005(a)(10)(I)(i).....	84
§4005(a)(10)(I)(i)(I)	86
§4005(a)(10)(I)(i)(II)	86
§4005(a)(10)(I)(i)(III)	86
§4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ia).....	86
§4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ib).....	86
§4005(a)(10)(I)(i)(VII)	86
§4005(a)(10)(I)(i)(VIII)	87
§4005(a)(10)(I)(i)(IX)	87
§4005(a)(10)(I)(i)(X)	87
§4005(a)(10)(I)(ii)	87
§4005(a)(10)(I)(iii)	87
§4005(a)(10)(I)(iv)	87
§4005(a)(10)(I)(v).....	87
§4005(a)(10)(I)(vi)	87
§4005(a)(10)(I)(vi)(VIII)	88
§4005(a)(10)(I)(vi)(IX)	88
§4005(a)(10)(I)(vii)	89
§4005(b)(2)	89
§4005(b)(3)	89
§4005(g)(1)(A).....	89
§12280	90
§12303(b).....	90
§14282(d).....	90
§15000	90
§19200	91
§19207	91

मिशन स्टेटमेंट

“Orange काउंटी के नागरिकों के लिए चुनाव प्रक्रिया तक समान पहुंच सुनिश्चित करने, वोटों की अखंडता की रक्षा करने और पारदर्शी, सटीक और निष्पक्ष प्रक्रिया बनाए रखने के लिए चुनाव सेवाएं प्रदान करना।”

विज़न स्टेटमेंट

“लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास और भरोसा जगाने के लिए चुनाव प्रशासन में उत्कृष्टता सुनिश्चित करना।”

2026-2029 चुनाव प्रशासन योजना प्रतिबद्धताएँ

अनिवार्य तत्व	2026-2029 EAP प्रतिबद्धता
सामुदायिक उपस्थिति का विवरण	<p>सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेकर, लक्षित आउटरीच के माध्यम से, तथा सामुदायिक चुनाव कार्य समूह (CEW), मतदाता सुगम्यता सलाहकार समिति (VAAC) तथा भाषा सुगम्यता सलाहकार समिति (LAAC) सहित हमारे सामुदायिक साझेदारों के साथ काम करके मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए सामुदायिक उपस्थिति।</p>
सुलभ वेबसाइट पर सुलभता संबंधी जानकारी	<p>वेबसाइट विकलांग मतदाताओं के लिए उपलब्ध सेवाओं के बारे में सुलभ प्रारूप में जानकारी प्रदान करती है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, काउंटी मतदाता सूचना मार्गदर्शिका में यह जानकारी दी गई है कि विकलांग मतदाता किस प्रकार मतदाता रजिस्ट्रार से सहायता का अनुरोध कर सकते हैं, साथ ही विकलांगता अधिकार California के वोटिंग हॉटलाइन फोन नंबर की भी जानकारी दी गई है।</p>
भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंच	<ul style="list-style-type: none"> • समर्पित द्विभाषी कर्मचारी एक व्यापक सामुदायिक कार्यक्रम कैलेंडर बनाए रखते हैं • समुदाय-आधारित समूहों/संगठनों के साथ साझेदारी बनाए रखें • CEW और LAAC से नियमित रूप से परामर्श करें • सामुदायिक भागीदारों को जानकारी साझा करने के लिए एक संचार टूल किट प्रदान करें • सोशल मीडिया, डायरेक्ट मेल, ईमेल, प्रिंट, प्रसारण, वीडियो, ऑनलाइन और रेडियो के मिश्रण का उपयोग करके जानकारी प्रकाशित करें

अनिवार्य तत्व	2026-2029 EAP प्रतिबद्धता
	<ul style="list-style-type: none"> • प्रेस विज्ञप्ति जारी करना और मीडिया को साक्षात्कार और ब्रीफिंग प्रदान करना
भाषाई अल्पसंख्यक मतदाताओं की पहचान करने की विधि	मतदाता जो मतदाता पंजीकरण प्रपत्रों और सामुदायिक भागीदारों से इनपुट के माध्यम से भाषा सहायता का अनुरोध करते हैं।
प्रत्येक कवर की गई भाषा अल्पसंख्यक के लिए कार्यशाला	Orange काउंटी की प्रत्येक संघीय और राज्य-आवश्यक भाषा के लिए EAP अद्यतन के दौरान सामुदायिक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
विकलांग मतदाताओं के लिए कार्यशाला	मतदान सुगम्यता के बारे में फीडबैक प्राप्त करने के लिए EAP अद्यतन के दौरान सामुदायिक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें एक ASL दुभाषिया के साथ आयोजित एक आभासी कार्यशाला भी शामिल थी।
आउटरीच के लिए बजट और व्यय योजना	मतदाताओं को मतदान के लिए पंजीकरण करने तथा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बारे में शिक्षित करने के लिए स्टाफ संसाधनों, आउटरीच सामग्रियों, सार्वजनिक सेवा घोषणाओं, वेबसाइट तथा सोशल मीडिया खातों में धन का निवेश करें।
प्रत्येक चुनाव के लिए PSA (शामिल भाषाएँ और सुलभ)	सभी चुनावों के लिए प्रिंट और ऑडियो मीडिया आउटलेट्स के लिए लिखित प्रारूप, TV और सोशल मीडिया के लिए ओपन-कैप्शन वाले वीडियो भी बनाए जा सकते हैं।
प्रत्येक चुनाव के लिए सभी मतदाताओं से दो सीधे संपर्क	वैधानिक आवश्यकता को पूरा करें। प्रावधान के तहत अनुमत मतदाताओं से सीधे संपर्क को दो से घटाकर एक करने की लागत प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।

अनिवार्य तत्व	2026-2029 EAP प्रतिबद्धता
<p>एक विकलांग मतदाता स्वतंत्र रूप से मतपत्र पर निशान लगाने का अनुरोध कैसे कर सकता है</p>	<p>मतदाता वेबसाइट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फोन पर, लिखित रूप में डाक द्वारा या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से, या कार्यालय या मतदान केंद्र में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सुलभ मतपत्र का अनुरोध कर सकता है।</p>
<p>पहुँच और भागीदारी में महत्वपूर्ण असमानताओं को कैसे संबोधित किया जाएगा</p>	<p>विभिन्न समुदायों की पहुँच और भागीदारी में सुधार लाने के लिए सामुदायिक सलाहकार समितियों के साथ नियमित रूप से परामर्श करें, तथा मोबाइल "पॉप-अप" मतदान साइटों की मेजबानी के लिए साझेदारी करें।</p>
<p>मतदान केंद्र पर मतदान कैसे सुरक्षित होगा</p>	<p>कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण को शामिल करते हुए भौतिक, प्रक्रियात्मक और साइबर सुरक्षा नियंत्रणों को लागू करना। यदि कोई घटना घटित होती है तो प्रतिक्रिया देने की योजना है।</p>
<p>मतदान केंद्र प्रक्रिया में व्यवधान को रोकने के लिए सुरक्षा योजना</p>	<p>संघीय, राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन साझेदारियां; मतदाता रजिस्ट्रार कार्यालय कमांड सेंटर में Orange काउंटी शेरिफ अधिकारी, क्षेत्रीय पर्यवेक्षक और त्वरित तैनाती दल किसी भी मुद्दे पर त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए।</p>
<p>चुनाव लागत तुलना</p>	<p>2018 से अब तक हुए सभी चुनावों के लिए लागत तुलना रिपोर्ट पोस्ट करें।</p>
<p>मतदान केंद्रों की संख्या</p>	<p>नियमित चुनावों के लिए वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना या उससे अधिक करना:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-10 से E-4 तक, E-88 पर प्रति 50,000 पंजीकृत मतदाताओं पर कम से कम एक मतदान केंद्र है • E-3 से E-0 तक का अर्थ है E-88 पर प्रति 10,000 पंजीकृत मतदाताओं पर कम से कम एक मतदान केंद्र

अनिवार्य तत्व	2026-2029 EAP प्रतिबद्धता
	<p>विशेष चुनावों के लिए वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना या उससे अधिक करना:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-10 से E-1 का अर्थ है E-88 पर प्रति 60,000 पंजीकृत मतदाताओं पर कम से कम एक मतदान केंद्र • E-0 का अर्थ है E-88 पर प्रति 30,000 पंजीकृत मतदाताओं पर कम से कम एक मतदान केंद्र
मतपत्र डालने के स्थानों की संख्या	E-88 पर प्रति 15,000 मतदाताओं पर कम से कम एक मतपत्र ड्रॉपऑफ स्थान की वैधानिक आवश्यकता को पूरा करें।
प्रत्येक मतदान केंद्र का स्थान	2024 के राष्ट्रपति आम चुनाव में उपयोग किए जाने वाले स्थान प्रदान किए गए।
प्रत्येक मतपत्र ड्रॉपऑफ स्थान का स्थान	2024 के राष्ट्रपति आम चुनाव में उपयोग किए जाने वाले स्थान प्रदान किए गए।
मतदान स्थान मानदंड	अनिवार्य मानदंडों के अतिरिक्त, मतदान केंद्र और मतपत्र ड्रॉप बॉक्स हीट मैप का उपयोग करके शहर, स्थान, कमरे का आकार, पार्किंग और पहुंच पर विचार करें।
प्रत्येक मतदान केंद्र और मतपत्र डालने के स्थान का नक्शा	प्रत्येक आवश्यक मानदंड के लिए परतों के साथ हीट मैप का लिंक प्रदान किया गया।
मतदान केंद्रों के संचालन के घंटे	<ul style="list-style-type: none"> • E-10 से E-1: सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक • चुनाव के दिन: सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक

अनिवार्य तत्व	2026-2029 EAP प्रतिबद्धता
मतपत्र डालने के स्थानों के संचालन के घंटे	सभी स्थायी रूप से स्थापित ड्रॉप बॉक्सों के लिए E-28 से चुनाव दिवस तक 24 घंटे / प्रति सप्ताह 7 दिन (कर्मचारी युक्त मतपत्र ड्रॉप बॉक्स नियमित व्यावसायिक घंटों में खुलते हैं)।
चुनाव बोर्ड के सदस्यों की संख्या	औसतन 7 ग्राहक सेवा प्रतिनिधि, जिसमें प्रत्येक वोट केंद्र में 1 CSR लीड शामिल है। यह मतदान केन्द्र, चुनाव के प्रकार, ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत और मतदान केन्द्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकता है।
द्विभाषी बोर्ड सदस्य और बोली जाने वाली भाषाएँ	<p>संघीय मतदान अधिकार अधिनियम और California चुनाव संहिता धारा 14201 में शामिल भाषा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले निर्वाचन क्षेत्र में या निर्वाचन क्षेत्र के निकट स्थित प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए द्विभाषी CSR की नियुक्ति और नियुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करें।</p> <p>अनुवादित लिखित सामग्री, टेलीफोन कॉल सहायता और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहायता प्रदान करें।</p>
विकलांग मतदाताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ	<p>दिव्यांग मतदाताओं का समर्थन इस प्रकार करें:</p> <ul style="list-style-type: none"> • यह सुनिश्चित करना कि सभी चयनित मतदान केंद्र पहुँच-योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करें • वर्तमान सुगम्यता-समर्थित प्रौद्योगिकी के साथ मतदान प्रणाली का उपयोग करना • घर से या मतदान केंद्र पर अपने वाहन से स्वतंत्र रूप से मतदान करने की क्षमता का विस्तार • प्रत्येक मतदान केंद्र पर आभासी ASL व्याख्या प्रदान करना

अनिवार्य तत्व	2026-2029 EAP प्रतिबद्धता
<p>प्रत्येक मतदान केंद्र के अंदर उपकरणों का डिज़ाइन, लेआउट और प्लेसमेंट</p>	<p>मतदान केन्द्रों को भेजे गए एक स्केल्ड लेआउट का नमूना प्रदान किया गया, जिसमें विभिन्न आकृतियों, कमरों के आकार और उपकरण लगाने के विकल्पों पर विचार किया गया है, ताकि मतदाता स्वतंत्र रूप से और निजी तौर पर मतपत्रों पर निशान लगा सकें।</p>
<p>टोल-फ्री मतदाता सहायता हॉटलाइन E-29 द्वारा E+1 पर शाम 5 बजे तक चालू रहेगी</p>	<p>एक निःशुल्क मतदाता सहायता हॉटलाइन उपलब्ध कराएं और उसका विज्ञापन करें जो सुलभ हो और सभी संघीय तथा राज्य स्तरीय भाषाओं में मतदाताओं को आवश्यकता से अधिक दिनों तक सेवा प्रदान कर सके।</p>

मतदाता शिक्षा और आउटरीच योजना

चुनाव संहिता §4005(a)(10)(I)(i)

टिप्पणी: इस दस्तावेज़ में उद्धृत अनुभाग California चुनाव संहिता को संदर्भित करते हैं, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

मतदाता विकल्प अधिनियम (VCA) में मतदाता शिक्षा और आउटरीच के लिए व्यापक आवश्यकताएं शामिल हैं, जिसमें मीडिया का उपयोग, मतदाताओं के साथ सीधा संपर्क और वीसीए के प्रावधानों के बारे में मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए सामुदायिक उपस्थिति शामिल है। इसके लिए Orange काउंटी रजिस्ट्रार ऑफ वोटर्स कार्यालय (OCROV) को एक विस्तृत [मतदाता शिक्षा और आउटरीच योजना \(VEOP\)](#) तैयार करने की भी आवश्यकता है, जिसे California के राज्य सचिव के कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

OCROV का [VEOP](#) एक अलग दस्तावेज़ के रूप में प्रदान किया गया है, और चुनाव प्रशासन योजना (EAP) के इस खंड में VCA की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजनाओं का सारांश भी दिया गया है। [VEOP](#) को अद्यतन किया जा सकता है क्योंकि OCROV को समुदाय से इनपुट प्राप्त होते रहेंगे; हालाँकि, योजना के आवश्यक तत्वों के प्रति प्रतिबद्धताएँ नीचे उल्लिखित हैं।

मीडिया उपयोग

भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों की सेवा करने वाले मीडिया का उपयोग, उन्हें आगामी चुनाव के बारे में सूचित करना, और टोल-फ्री हॉटलाइन का उपयोग

[§4005\(a\)\(10\)\(I\)\(i\)\(I\)](#)

OCROV की योजना में जनता को घटनाओं की जानकारी देने, चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने और समुदाय के साथ विश्वास कायम करने के लिए भाषा मीडिया आउटलेट, सोशल मीडिया और अन्य संचार विधियों का उपयोग करना शामिल है। इनमें से कई कार्यक्रम भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आयोजित किए जाते हैं, तथा संचार आमतौर पर अनुवादित होता है। इस योजना में अभियानों की सफलता को मापने और उपयोगकर्ताओं की सहभागिता पर नज़र रखने के तरीके शामिल हैं।

यह [VEOP](#) के लक्ष्य 1 और 5 में शामिल है।

मीडिया का उपयोग, मतदाताओं को डाक द्वारा मतदान मतपत्र की उपलब्धता और अनुरोध की प्रक्रिया के बारे में सूचित करना

[§4005\(a\)\(10\)\(I\)\(i\)\(II\)](#), [§3016.7](#), [§303.3](#)

OCROV की योजना में मतदाताओं को RAVBM मतपत्र की उपलब्धता के बारे में सूचित करने के लिए मीडिया आउटलेट, सोशल मीडिया और मतदाता सूचना मार्गदर्शिका सहित अन्य संचार विधियों का उपयोग करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, OCROV की वेबसाइट पर RAVBM मतपत्र का अनुरोध करने, उसे पूरा करने और वापस करने की जानकारी भी शामिल है।

यह [VEOP](#) के लक्ष्य 5 में शामिल है।

सामुदायिक सहभागिता

VCA के प्रावधानों के बारे में मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए सामुदायिक उपस्थिति

[§4005\(a\)\(10\)\(I\)\(i\)\(III\)](#)

मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए सामुदायिक उपस्थिति बनाने की OCROV की योजना में सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेना, आउटरीच के लिए विशिष्ट समूहों को लक्षित करना, तथा आउटरीच के अवसरों की पहचान करने में मदद करने के लिए सामुदायिक समूहों के साथ काम करना शामिल है। योजना की सफलता को मापने के लिए योजना में विशिष्ट मापदण्ड भी उपलब्ध कराए गए हैं।

इसे [VEOP](#) के लक्ष्य 1 में विस्तार से कवर किया गया है।

सुलभ वेबसाइट जानकारी

OCROV की वेबसाइट पर पहुँच संबंधी जानकारी

[§4005\(a\)\(2\)\(B\)](#), [§4005\(a\)\(4\)\(D\)](#), [§4005\(a\)\(8\)\(B\)\(ii\)](#)

OCROV सुगम्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें वोट सेंटर और बैलट ड्रॉप बॉक्स सुगम्यता, RAVBM मतदान, कर्बसाइड मतदान, और ocvote.gov/accessibility पर उपलब्ध सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त, मतदान केन्द्रों और मतपत्र ड्रॉप बॉक्सों की सूची OCROV की वेबसाइट पर सुलभ प्रारूप में पोस्ट की गई है।

OCROV समय-समय पर हमारी वेबसाइट की जांच करता है ताकि पहुँच संबंधी चिंताओं की पहचान की जा सके और उनका समाधान किया जा सके, तथा आवश्यकतानुसार अपडेट लागू

किए जा सकें। OCROV मतदान सुगम्यता सलाहकार समिति (VAAC) से प्राप्त सुझावों का भी स्वागत करता है तथा जहां भी संभव हो, उनकी सिफारिशों को शामिल करता है।

सुलभ डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र का अनुरोध करने या उसका उपयोग करने की जानकारी भी मतदाता सूचना मार्गदर्शिका में शामिल है, जो सभी मतदाताओं को भेजी जाती है।

इसे [VEOP](#) के लक्ष्य 5 में विस्तार से कवर किया गया है।

भाषाई अल्पसंख्यक मतदाताओं की पहचान

भाषाई अल्पसंख्यक मतदाताओं की पहचान करने के लिए प्रयुक्त पद्धति

[§4005\(a\)\(9\)\(A\)](#), [§12303\(b\)](#)

OCROV भाषा अल्पसंख्यक मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए California चुनाव संहिता के धारा 14201 के उपधारा (a) और 1965 के संघीय मतदान अधिकार अधिनियम (52 U.S.C. Sec. 10101 et seq.) के तहत आवश्यक भाषाओं के लिए विशेष योजनाएँ विकसित करता है¹।

OCROV अपने चुनाव प्रबंधन प्रणाली (EMS) का उपयोग मतदाता भाषा प्राथमिकताओं की समीक्षा करने, अनुवादित चुनाव सामग्री के लिए अनुरोधों सहित, लक्षित पहुंच और शिक्षा की योजना बनाने के लिए करता है। इसके अलावा, OCROV नियमित रूप से अपने भाषा पहुंच सलाहकार समिति (LAAC) के साथ परामर्श करता है, जो भाषा अल्पसंख्यक मतदाताओं को लक्षित करने के तरीकों पर सुझाव प्रदान करता है।

इसे [VEOP](#) के लक्ष्य 1 में विस्तार से कवर किया गया है।

शिक्षा और प्रावधानों का सार्वजनिक संचार

जनता से संवाद, जिसमें शामिल हैं:

धारा 14201 और संघीय मतदान अधिकार अधिनियम के तहत परिभाषित भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय [§4005\(a\)\(10\)\(I\)\(i\)\(VI\)\(ia\)](#)

¹ California चुनाव संहिता की धारा 14201 के तहत आवश्यक भाषाएं फ़ारसी (फ़ारसी), गुजराती, हिंदी, जापानी और तागालोग हैं। 1965 के संघीय मतदान अधिकार अधिनियम की धारा 203 द्वारा आवश्यक भाषाएँ चीनी, कोरियाई, स्पेनिश और वियतनामी हैं। यह इस योजना के लागू होने के समय की भाषा आवश्यकताएँ हैं, और यदि आवश्यकताएँ बदलती हैं, तो हमारी संचार योजनाएँ भी उसी के अनुसार बदलेंगी।

इस योजना अद्यतन की तैयारी में, OCROV ने California चुनाव संहिता की धारा 14201 और 1965 के संघीय मतदान अधिकार अधिनियम की धारा 203 (52 U.S.C. Sec. 10101 et seq.) द्वारा आवश्यक प्रत्येक भाषा के लिए अलग-अलग कार्यशालाएं आयोजित कीं।¹ इस EAP के विकास के दौरान आयोजित कार्यशालाओं की सूची परिशिष्ट A में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, OCROV ने LAAC के साथ नियमित रूप से बैठकें निर्धारित की हैं, जिसके लिए अधिक जानकारी OCROV की वेबसाइट ocvote.gov/cew पर पाई जा सकती है। OCROV समुदाय समूहों से, जिन्हें विश्वसनीय संदेशवाहक के रूप में जाना जाता है, अपने सदस्यों के साथ जानकारी साझा करने के लिए भी कहता है।

इस पर [VEOP](#) के लक्ष्य 3 में विस्तार से चर्चा की गई है।

विकलांग समुदाय

[§4005\(a\)\(10\)\(I\)\(i\)\(VI\)\(ib\)](#)

इस योजना अद्यतन की तैयारी में, OCROV ने एक व्यक्तिगत, पूर्णतः सुलभ, ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की, जिसमें ASL व्याख्या भी शामिल थी। इसके अतिरिक्त, आयोजित प्रत्येक कार्यशाला में मतदान सुगम्यता पर एक घटक शामिल था। इस EAP के विकास के दौरान आयोजित कार्यशालाओं की सूची परिशिष्ट A में दी गई है।

OCROV ने नियमित रूप से VAAC के साथ बैठकें निर्धारित की हैं, जिसके लिए अधिक जानकारी OCROV की वेबसाइट ocvote.gov/cew पर पाई जा सकती है। OCROV समुदाय समूहों से, जिन्हें विश्वसनीय संदेशवाहक के रूप में जाना जाता है, अपने सदस्यों के साथ जानकारी साझा करने के लिए भी कहता है।

इसे [VEOP](#) के लक्ष्य 3 में विस्तार से कवर किया गया है।

संसाधनों का आवंटन

मतदाता शिक्षा और आउटरीच पर काउंटी आवश्यक संसाधनों को कैसे खर्च करेगी, इस पर एक विस्तृत बजट

[§4005\(a\)\(10\)\(I\)\(i\)\(VII\)](#)

OCROV कर्मचारियों के संसाधनों, आउटरीच सामग्री, जन सेवा घोषणाओं, अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया खातों में निवेश करना जारी रखेगा ताकि मतदाताओं को यह बताया जा सके कि वोट कैसे पंजीकरण कराएं और VCA चुनाव मॉडल में अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कैसे करें। इसके अतिरिक्त, OCROV अन्य आउटरीच रणनीतियों में निवेश करेगा, जिसमें

विश्वसनीय सामुदायिक भागीदारों का उपयोग शामिल है, जिसका विवरण [VEOP](#) में दिया गया है।

इस [VEOP](#) में एक विस्तृत चार्ट है जो यह दर्शाता है कि OCROV ने VCA के अनुसार आयोजित किए गए राज्यव्यापी चुनावों के दौरान मतदाता शिक्षा और आउटरीच पर कितना खर्च किया है।

सार्वजनिक सेवा घोषणाएँ (PSAs)

कम से कम एक सार्वजनिक सुरक्षा सेवा (PSA), जो सभी भाषाओं में मतदाताओं को सेवा प्रदान करे

[§4005\(a\)\(10\)\(I\)\(i\)\(VIII\)](#), [§4005\(a\)\(10\)\(I\)\(i\)\(IX\)](#)

OCROV प्रत्येक चुनाव से पहले अंग्रेजी में और California चुनाव संहिता की धारा 14201 और 1965 के संघीय मतदान अधिकार अधिनियम की धारा 203 (52 U.S.C. Sec. 10101 et seq.) द्वारा अपेक्षित प्रत्येक भाषा के लिए PSA प्रदान करके इन आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रिंट और ऑडियो मीडिया आउटलेट्स के लिए PSA लिखित प्रारूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। OCROV कभी-कभी टेलीविजन आउटलेट और सोशल मीडिया पर उपयोग के लिए ओपन-कैप्शन, वीडियो-फॉर्मेट PSA भी तैयार कर सकता है।

PSA में चुनाव के बारे में जानकारी, मतदाता किस प्रकार मतदान कर सकते हैं, तथा OCROV का टोल-फ्री मतदाता सहायता हॉटलाइन नंबर शामिल होगा।

इसे [VEOP](#) के लक्ष्य 5 में विस्तार से कवर किया गया है।

मतदाताओं से सीधा संपर्क

मतदाताओं के साथ कम से कम दो प्रत्यक्ष संपर्क

[§4005\(a\)\(10\)\(I\)\(i\)\(X\)](#)

OCROV ने मतदाताओं के साथ कम से कम दो प्रत्यक्ष संपर्कों की आवश्यकता को पूरा किया है, इसके लिए उसने मतदाता पंजीकरण के भाग के रूप में बिना ई-मेल वाले मतदाताओं को पोस्टकार्ड भेजे हैं, तथा शेष मतदाताओं को ई-मेल किया है। कृपया OCROV द्वारा भेजे गए पोस्टकार्डों के नमूने के लिए परिशिष्ट B देखें।

इस प्रावधान के तहत, चुनाव अधिकारी VCA के तहत छह राज्यव्यापी चुनाव कराने के बाद प्रत्यक्ष संपर्कों की संख्या को घटाकर एक कर सकते हैं, लेकिन यह केवल उन मतदाताओं के लिए

होगा जो Orange काउंटी में छह चुनावों के लिए पंजीकृत हैं। चूंकि OCROV ने VCA के अंतर्गत छह से अधिक राज्यव्यापी चुनाव आयोजित किए हैं, इसलिए OCROV के पास इन मतदाताओं को एक सीधा संपर्क भेजने का विकल्प है। OCROV इन मतदाताओं के लिए संपर्क संख्या को घटाकर एक करने की लागत प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेगा। यदि OCROV किसी भी चुनाव के लिए इन विशेष मतदाताओं से संपर्क करने का निर्णय लेता है, तो OCROV बचाई गई आधी धनराशि को ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले मतदाताओं तक पहुंचने के प्रयासों के लिए आवंटित करेगा।

यदि सीधा संपर्क मेल द्वारा है, तो यह प्रावधान OCROV को प्रत्येक डाक पते, उपनाम और भाषा के अनुसार एक मेल भेजने की अनुमति देता है। OCROV इस न्यूनतम आवश्यकता का अनुपालन करेगा, लेकिन किसी चुनाव के लिए प्रत्येक मतदाता को एक अलग मेल भेजने का विकल्प चुन सकता है।

इसे [VEOP](#) के लक्ष्य 5 में विस्तार से कवर किया गया है।

डाक द्वारा मतदान की सुविधा

चुनाव संहिता §4005(a)(10)(I)(ii)

VCA को डाक द्वारा मतदान की सुविधा की आवश्यकता है, जिसमें डाक द्वारा मतदान मतपत्र को निजी और स्वतंत्र रूप से चिह्नित करने की क्षमता भी शामिल है।

विकलांग मतदाताओं के लिए रिक्त या प्रतिस्थापन योग्य डाक-द्वारा- मतदान मतपत्र का अनुरोध करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया

§3016.7, §14282(d)

सभी मतदान केन्द्रों पर विकलांग मतदाताओं के लिए कर्बसाइड मतदान की सुविधा उपलब्ध है, जिससे उन्हें डाक द्वारा मतदान के लिए प्रतिस्थापन मतपत्र प्राप्त करने या मतपत्र बनाने वाले उपकरण का उपयोग करने की सुविधा मिलती है। सड़क किनारे उपलब्ध सेवाएं मतदान केन्द्र के अंदर भी उपलब्ध हैं। कर्बसाइड वोटिंग मतदाताओं को यह करने की अनुमति देती है:

- घर ले जाने के लिए एक प्रतिस्थापन वोट-बाय-मेल मतपत्र प्राप्त करें।
- अपने वाहन से भरने के लिए प्रतिस्थापन मतपत्र प्राप्त करें और उसे तुरंत वापस कर दें।
- यदि आवश्यक हो तो अपने वाहन से सुलभ मतपत्र अंकन उपकरण का उपयोग करें।

सभी मतदाताओं के पास RAVBM मतपत्र का उपयोग करके घर से मतदान करने का विकल्प है। यह ऑनलाइन टूल मतदाताओं को यह सुविधा देता है:

- अपने मतपत्र को सुलभ प्रारूप में देखें।
- अपना मतपत्र सुरक्षित रूप से ऑनलाइन अंकित करें।
- डाक द्वारा वापस भेजने के लिए पूर्ण मतपत्र का प्रिंट लें।

RAVBM को मतपत्र लिफाफे में वापस करके हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, तथा इसे अन्य डाक-द्वारा-मतदान मतपत्रों की तरह ही केन्द्रीय रूप से संसाधित किया जाता है।

यदि मतदाता प्रतिनिधि को ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करने वाला फॉर्म भरता है तो मतदाता अपने प्रतिनिधि से प्रतिस्थापन मतपत्र भी प्राप्त कर सकता है।

व्यक्तिगत रूप से मतदान और RAVBM का उपयोग करके घर से मतदान सहित विस्तृत सुलभता जानकारी ocvote.gov/accessibility पर पाई जा सकती है।

असमानताओं को संबोधित करना

चुनाव संहिता §4005(a)(10)(I)(iii)

VCA के तहत राज्य सचिव को प्रत्येक चुनाव के छह महीने के भीतर विधानमंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें मतदाताओं की श्रेणियों के अनुसार मतदाता भागीदारी का वर्णन होता है।

आवश्यक रिपोर्टों में पहचानी गई मतदाता पहुंच और भागीदारी संबंधी असमानताओं को दूर करने की योजना

§4005(g)(1)(A)

OCROV नियमित रूप से विभिन्न सामुदायिक सलाहकार समितियों के साथ परामर्श करता है, जिनसे Orange काउंटी में विभिन्न समुदायों की पहुंच और भागीदारी में सुधार लाने के बारे में सुझाव मांगे जाते हैं। OCROV की निम्नलिखित सामुदायिक सलाहकार समितियां हैं:

- सामुदायिक चुनाव कार्य (CEW) समूह - यह समिति वर्ष में दो से चार बार मिलती है और इसमें समुदायों के विभिन्न समूहों के 20 से 30 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सामान्य चुनाव प्रशासन विषयों पर OCROV को सलाह देने के अलावा, CEW आवश्यक मतदाता शिक्षा और आउटरीच सलाहकार समिति की भूमिका भी निभाता है।
- मतदान सुगम्यता सलाहकार समिति (VAAC) - यह समिति वर्ष में दो से चार बार मिलती है और OCROV को सुगम्यता संबंधी मुद्दों और दिव्यांग मतदाताओं की आवश्यकताओं पर बेहतर ढंग से विचार करने के तरीकों पर सलाह देती है।
- भाषा सुगम्यता सलाहकार समिति (LAAC) - यह समिति वर्ष में दो से चार बार मिलती है और भाषा पहुंच संबंधी मुद्दों पर OCROV को सलाह देती है।

समूह, जिसमें CEW, VAAC, और LAAC शामिल हैं, उन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके लिए राज्य सचिव चुनावों के बाद की रिपोर्ट तैयार करते हैं। समूह की सदस्यता सहित समूहों की पूरी सूची ocvote.gov/cew पर सूचीबद्ध है।

OCROV ने वरिष्ठ समुदायों और विकलांगता अधिवक्ताओं जैसे सामुदायिक समूहों के साथ साझेदारी की है, ताकि "पॉप-अप" मतदान स्थलों की स्थापना की जा सके। ये मोबाइल "पॉप-अप" मतदान साइटें मतदान को सीधे समुदाय तक पहुंचाती हैं, जिससे मतदान तक आसान पहुंच मिलती है। भविष्य में इसमें परिवर्तन और विकास हो सकता है, क्योंकि OCROV कार्यक्रम की सफलता का आकलन करता है और सलाहकार समितियों से निरंतर इनपुट प्राप्त करता है।

इसके अतिरिक्त, VEOP समुदाय के सभी सदस्यों तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय के सदस्य भी शामिल हैं।

इस पर [VEOP](#) में विस्तार से चर्चा की गई है।

मतदान केंद्र सुरक्षा

चुनाव संहिता §4005(a)(10)(I)(iv)

OCROV मतदान केन्द्रों पर मतदान को सुरक्षित एवं संरक्षित बनाने के लिए कई तरीके अपनाता है।

सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीके और मानक

मतदान प्रणाली सुरक्षा

राज्य सचिव द्वारा प्रमाणन

§19200, §19207

California में प्रयुक्त किसी भी मतदान प्रणाली को California के राज्य सचिव कार्यालय से कठोर प्रमाणीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस प्रक्रिया में, अन्य उपायों के अलावा, एक वोटिंग सिस्टम परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा स्रोत कोड की समीक्षा और प्रवेश परीक्षण भी शामिल है। एक बार सिस्टम प्रमाणित हो जाने पर, सिस्टम और सॉफ्टवेयर को एस्करो सुविधा में रखा जाता है। काउंटियों को मतदान प्रणाली के लिए सॉफ्टवेयर सीधे राज्य सचिव के कार्यालय से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, सिस्टम के किसी भी भाग के लिए सॉफ्टवेयर, जो मतपत्रों को स्कैन या सारणीबद्ध करता है, को प्रत्येक चुनाव से पहले पुनः लोड किया जाता है। केंद्रीय स्कैन और मतपत्र सारणीकरण प्रणालियों के लिए, इसमें कंप्यूटरों की पुनः इमेजिंग शामिल है, जिसमें उन पर मौजूद सभी चीजों को मिटाना और राज्य के विश्वसनीय बिल्ड से सॉफ्टवेयर को पुनः इंस्टॉल करना शामिल है।

मतदान प्रणाली प्रमाणन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी राज्य सचिव की वेबसाइट

<https://www.sos.ca.gov/elections/ovsta> पर पाई जा सकती है।

प्रक्रियात्मक सुरक्षा

§15000

मतदान प्रणाली का उपयोग और क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाता है, इसकी प्रक्रियाएं मतदान केन्द्र में मतदान को सुरक्षा की एक परत प्रदान करती हैं। कई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

- एयर गैप - मतदान प्रणाली के घटक जिनमें मतपत्र का निर्माण, ऑन-डिमांड मतपत्रों की छपाई, मतपत्र स्कैनिंग और सारणीकरण शामिल हैं, इंटरनेट या किसी बाहरी नेटवर्क से भौतिक रूप से पृथक होते हैं। मतदान प्रणाली के लिए एयर-गैप की आवश्यकता प्रमाणन

आवश्यकताओं का हिस्सा है, जिसे राज्य सचिव की वेबसाइट पर <https://www.sos.ca.gov/elections/ovsta> पर पाया जा सकता है।

- परीक्षण - प्रत्येक चुनाव से पहले मतपत्रों को स्कैन करने और गिनने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक उपकरण पर तर्क और सटीकता परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण में चुनाव में प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए परीक्षण मतपत्रों को चिह्नित करना, परीक्षण मतपत्रों को स्कैन करना, तथा यह सुनिश्चित करना शामिल है कि परीक्षण मतपत्र अपेक्षानुसार सारणीबद्ध हों।
- कस्टडी की श्रृंखला - उपकरण का परीक्षण करने के बाद और उसे मतदान केंद्र पर तैनात करने से पहले, उपकरण पर छेड़छाड़-रोधी, क्रमबद्ध सुरक्षा सील लगा दी जाती है, जो उसके खोले जाने या उपयोग किए जाने का सबूत दिखाती है। उपकरण के साथ कस्टडी दस्तावेजों की श्रृंखला भी होती है, तथा मतदान अवधि के दौरान सुरक्षा मुहरों का प्रतिदिन चुनाव कार्यकर्ताओं द्वारा सत्यापन किया जाता है। विशिष्ट उपयोग प्रक्रियाएं राज्य सचिव की वेबसाइट पर <https://www.sos.ca.gov/elections/ovsta/voting-technology-vendors/hart-intercivic> पर देखी जा सकती हैं।

भौतिक सुरक्षा

OCROV स्थानीय कानून प्रवर्तन के साथ काम करता है, जिसमें OC शेरिफ़ विभाग और OC जिला अटॉर्नी शामिल हैं, ताकि मतदान केंद्र पर किसी भी भौतिक सुरक्षा मुद्दों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। OCROV के पास मैदान में पर्यवेक्षक भी होते हैं जो मतदान केंद्र पर किसी घटना का त्वरित उत्तर दे सकते हैं, और पूरे जिले में रणनीतिक रूप से पाए जाने वाले वाहनों में आपूर्ति और मतदान उपकरणों के साथ त्वरित तैनाती टीम होती हैं।

इलेक्ट्रॉनिक मतदान पुस्तकें

राज्य सचिव द्वारा प्रमाणन

[§2550\(b\)](#)

इलेक्ट्रॉनिक मतदान पुस्तिकाओं को मतदान केन्द्र में उपयोग करने से पहले राज्य सचिव के कार्यालय द्वारा परीक्षण और प्रमाणित किया जाना चाहिए। प्रमाणन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि उपकरण सही ढंग से कार्य करें तथा उचित सुरक्षा नियंत्रण मौजूद हों।

आवश्यकताओं के उदाहरणों में शामिल हैं:

- सभी मतदाता पंजीकरण डेटा को विश्राम एवं पारगमन दोनों अवस्थाओं में एन्क्रिप्ट किया जाना चाहिए।

- इसमें California ड्राइवर लाइसेंस नंबर या सामाजिक सुरक्षा नंबर का पूरा या आंशिक भाग जैसे संवेदनशील पहचानकर्ता शामिल नहीं होने चाहिए।
- इलेक्ट्रॉनिक मतदान पुस्तिका को किसी भी समय मतदान प्रणाली से नहीं जोड़ा जाएगा।

प्रक्रियात्मक सुरक्षा

OCROV नियामक या विधायी आवश्यकता के तहत आवश्यक नहीं होने वाले अतिरिक्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा का भी उपयोग करता है। इसका एक उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक मतदान पुस्तिकाओं को मतदान केन्द्र तक पहुंचाते समय कस्टडी दस्तावेजों और सुरक्षा मुहरों की श्रृंखला का उपयोग है। OCROV एक केंद्रीय प्रबंधन प्रणाली का भी उपयोग करता है जो आवश्यकता पड़ने पर किसी डिवाइस से सभी डेटा को दूरस्थ रूप से "वाइप" या हटाने की क्षमता प्रदान करता है।

चुनाव लागत

चुनाव संहिता §4005(a)(10)(I)(v)

VCA को चुनाव अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि वे VCA मॉडल के तहत आयोजित चुनावों और मतदान स्थान प्रीकिंग्ट मॉडल के तहत आयोजित अंतिम चुनावों के बीच लागत की तुलना प्रदान करें।

पिछले समान चुनावों की तुलना में अनुमानित अल्पकालिक और दीर्घकालिक लागत और बचत

OCROV ने VCA के तहत आयोजित सभी चुनावों और VCA को अपनाने से पहले के सबसे हालिया चुनाव के लिए लागत तुलना रिपोर्ट OCROV की वेबसाइट पर पोस्ट की है: <https://ocvote.gov/voting/cost-comparisons-for-all-elections>. OCROV लागत विश्लेषण और अद्यतन जानकारी के साथ इस पृष्ठ को अद्यतन करना जारी रखेगा, जैसे ही यह उपलब्ध होगा।

Orange काउंटी द्वारा VCA को अपनाने के बाद से चल रहे चुनाव संचालन लागत में वृद्धि हुई है, जिसमें श्रम और सामग्री शामिल हैं। हालाँकि, यह पूरी तरह से VCA चुनाव मॉडल के कारण नहीं है, क्योंकि California विधानमंडल प्रत्येक वर्ष चुनाव कानूनों में संशोधन करता है, जिससे अक्सर परिचालन संबंधी आवश्यकताएं जुड़ जाती हैं। VCA चुनाव मॉडल को अपनाने से 2019 में चुनाव उपकरणों में OCROV का पूंजी निवेश कम हो गया, जबकि मतदान स्थल मॉडल जारी रहने पर उपकरणों की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती।

मतदान केंद्र और ड्रॉपऑफ़ स्थान का विवरण

चुनाव संहिता §4005(a)(10)(I)(vi)

VCA मतदान केन्द्रों और मतपत्र डालने के स्थानों की संख्या के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं प्रदान करता है, साथ ही उनके स्थान का निर्धारण करते समय विचार करने के लिए मानदंड भी प्रदान करता है। इसमें यह भी अपेक्षित है कि EAP मतदान स्थलों के संचालन को संबोधित करे, जिसमें उपलब्धता, पहुंच, सुरक्षा और संचालन की निरंतरता शामिल है।

संख्या और स्थान डेटा

मतदान केंद्रों की कुल संख्या

नियमित चुनाव

§4005(a)(4), §4005(a)(3)

विशेष चुनाव

§4005(b)(3), §4005(b)(2)

OCROV 11 दिवसीय मतदान केन्द्रों की संख्या के लिए प्रत्येक 50,000 मतदाताओं के लिए एक मतदान केन्द्र की आवश्यकता को पूरा करेगा, तथा नियमित चुनावों के दौरान 4 दिवसीय मतदान केन्द्रों की संख्या के लिए प्रत्येक 10,000 मतदाताओं के लिए एक मतदान केन्द्र की आवश्यकता को पूरा करेगा। OCROV मतदान के पहले 10 दिनों के लिए प्रत्येक 60,000 मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद्र और विशेष चुनावों के दौरान चुनाव के दिन प्रत्येक 30,000 मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद्र की आवश्यकता को पूरा करेगा²।

OCROV अतिरिक्त पहुंच या कवरेज प्रदान करने के लिए आवश्यकता से अधिक मतदान स्थानों का उपयोग कर सकता है। नीचे पिछले चुनावों में उपयोग किये गये मतदान केन्द्रों की संख्या की सूची दी गई है।

चुनाव	"मतदाता रजिस्ट्रार",	11-दिवसीय मतदान केंद्र	4-दिवसीय मतदान केंद्र	कुल मतदान केंद्र
2020 प्राथमिक	1631966	38	151	189
2020 सामान्य**	1770537	**	**	168
2022 प्राथमिक	1808773	43	138	181

² ये आवश्यकताएं चुनाव से 88 दिन पहले मतदाता पंजीकरण के योग पर आधारित हैं।

चुनाव	"मतदाता रजिस्ट्रार",	11-दिवसीय मतदान केंद्र	4-दिवसीय मतदान केंद्र	कुल मतदान केंद्र
2022 सामान्य	1808588	37	144	181
2024 प्राथमिक	1826738	37	146	183
2024 सामान्य	1830950	38	146	184

* चुनाव दिवस से 88 दिन पहले सक्रिय पंजीकृत मतदाताओं की संख्या।

** 5-दिवसीय मतदान केंद्र केवल राज्य के आदेशानुसार।

यदि किसी शहर द्वारा विशेष एकल चुनाव के लिए अनुरोध किया जाता है, तो OCROV अतिरिक्त मतदान स्थानों की व्यवस्था भी कर सकता है, जिसके लिए अनुरोध करने वाले शहर को अतिरिक्त लागत चुकानी होगी।

यदि California द्वारा मतदान केन्द्रों की आवश्यक संख्या और/या मतदान केन्द्रों के संचालन के आवश्यक दिनों में परिवर्तन करने के लिए VCA कानून में संशोधन किया जाता है, तो OCROV न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए आवश्यकतानुसार समायोजन करेगा।

मतपत्र ड्रॉपऑफ़ स्थानों की कुल संख्या

§4005(a)(1)(a)

OCROV प्रत्येक 15,000 मतदाताओं के लिए एक मतपत्र ड्रॉपऑफ़ स्थान की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिसमें सुरक्षित, स्थायी रूप से स्थापित मतपत्र ड्रॉप बॉक्स होंगे, जो मतदान अवधि के दौरान 24 घंटे सुलभ होंगे। मतपत्र ड्रॉप बॉक्स की सुरक्षा विशेषताएं परिशिष्ट F में सूचीबद्ध हैं। यदि मतदाता पंजीकरण बढ़ता है तो OCROV आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थायी रूप से स्थापित मतपत्र ड्रॉप बॉक्स जोड़ेगा। यदि किसी विशिष्ट चुनाव के लिए, OCROV केवल स्थायी रूप से स्थापित ड्रॉप बॉक्सों का उपयोग करके मतपत्र ड्रॉपऑफ़ स्थानों की अपेक्षित संख्या को पूरा करने में असमर्थ है, तो OCROV स्टाफ युक्त मतपत्र ड्रॉपऑफ़ स्थानों के साथ उनकी पूर्ति करेगा। इन स्टाफ युक्त मतपत्र ड्रॉपऑफ़ स्थानों के घंटे, स्थानों के नियमित व्यावसायिक घंटों पर आधारित होंगे।

इस योजना को अपनाने के समय तक, OCROV ने पूरे काउंटी में 123 स्थायी रूप से मतपत्र ड्रॉप बॉक्स स्थापित कर रखे हैं, जिनमें से अधिकांश का उपयोग 2020 से किया जा रहा है। नीचे पिछले चुनावों में उपयोग किये गये मतपत्र ड्रॉप बॉक्सों की संख्या की सूची दी गई है।

चुनाव	"मतदाता रजिस्ट्रार",	कुल ड्रॉप बॉक्स
2020 प्राथमिक	1631966	110
2020 सामान्य	1770537	116
2022 प्राथमिक	1808773	120
2022 सामान्य	1808588	121
2024 प्राथमिक	1826738	122
2024 सामान्य	1830950	123

* चुनाव दिवस से 88 दिन पहले सक्रिय पंजीकृत मतदाताओं की संख्या।

यदि California द्वारा VCA कानून में संशोधन करके मतपत्र डालने के स्थानों की आवश्यक संख्या में परिवर्तन किया जाता है, तो OCROV न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए आवश्यकतानुसार समायोजन करेगा

प्रत्येक मतदान केंद्र का स्थान और नक्शा

[§4005\(a\)\(10\)\(B\)](#)

OCROV वोट केंद्र स्थानों का निर्धारण करते समय कई कारकों पर विचार करता है, जिसमें चुनाव संहिता §4005(a)(10)(B) में सूचीबद्ध स्थापित, आवश्यक चयन मानदंड शामिल हैं। इसके अलावा, स्थानों का चयन करते समय, मतदान के लिए स्थान की उपयुक्तता पर भी अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है, जिसमें पार्किंग की उपलब्धता, कमरे का आकार और पहुंच शामिल है। उपयुक्तता आवश्यकताओं का विवरण परिशिष्ट C में दिया गया है।

OCROV ने 2024 के राष्ट्रपति सामान्य चुनाव में उपयोग किए गए वोट केंद्रों के स्थानों की एक सूची और एक मानचित्र भी प्रदान किया है, जो परिशिष्ट D में एक उदाहरण के रूप में है। हालांकि OCROV चुनावों के बीच चयनित वोट केंद्रों का लगातार उपयोग बनाए रखने का प्रयास करता है, OCROV को उपलब्धता, मतदाता पंजीकरण में बदलाव और अन्य कारकों के आधार पर बदलाव करने पड़ते हैं।

[OCROV की वेबसाइट पर एक इंटरैक्टिव नक्शा उपलब्ध है](#), जिसमें ऐतिहासिक मतदान केंद्र, वर्तमान मतपत्र ड्रॉप बॉक्स और एक "हीट मैप" प्रदर्शित है, जो दर्शाता है कि काउंटी के विभिन्न क्षेत्र मतदान केंद्रों और मतपत्र ड्रॉप बॉक्स के लिए आवश्यक मानदंडों और उपयुक्तता को कैसे पूरा करते हैं।

प्रत्येक मतपत्र ड्रॉपऑफ़ स्थल का स्थान और नक्शा तथा उसका स्थान (अंदर या बाहर)

[§4005\(a\)\(10\)\(B\)](#), [§4005\(a\)\(1\)\(B\)](#)

OCROV ने अनुपठ E में स्थानों की वर्तमान सूची और मतपत्र ड्रॉप बॉक्सों का मानचित्र प्रदान किया है। मतपत्र ड्रॉप बॉक्सों को स्थानांतरित करते समय उन स्थानों के लिए उपयोग किए गए समान कारकों को ध्यान में रखा गया है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन और जनसंख्या केंद्रों की निकटता शामिल है (§4005(a)(10)(B))।

[OCROV की वेबसाइट पर एक इंटरैक्टिव नक्शा उपलब्ध है](#), जिसमें ऐतिहासिक मतदान केंद्र, वर्तमान मतपत्र ड्रॉप बॉक्स और एक "हीट मैप" प्रदर्शित है, जो दर्शाता है कि काउंटी के विभिन्न क्षेत्र मतदान केंद्रों और मतपत्र ड्रॉप बॉक्स के लिए आवश्यक मानदंडों और उपयुक्तता को कैसे पूरा करते हैं।

ड्रॉप बॉक्स के संबंध में विशिष्ट विवरण, जिसमें पहुंच और सुरक्षा उपाय शामिल हैं, परिशिष्ट एफ में दिए गए हैं।

शल्य चिकित्सा के घंटे

मतदान केंद्र के समय

[§4005\(a\)\(3\)\(A\)](#), [§4005\(a\)\(4\)\(A\)](#)

मतदान केन्द्रों को चुनाव दिवस से पहले प्रत्येक दिन कम से कम आठ घंटे तथा चुनाव दिवस पर सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहना आवश्यक है। पिछले चुनावों में मतदान व्यवहार के विश्लेषण के आधार पर, जैसा कि परिशिष्ट G में विस्तृत किया गया है, और इस योजना के विकास के दौरान प्राप्त सार्वजनिक इनपुट के आधार पर, जैसा कि परिशिष्ट H में विस्तृत किया गया है, OCROV ने मतदान केंद्रों के घंटे निर्धारित किए हैं:

- मतदान के पहले 10 दिन: सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
- चुनाव के दिन: सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक

इसके अलावा, नए घंटों के बारे में योजनाबद्ध संदेश देने तथा मतदाताओं के लिए एकरूपता स्थापित करने पर भी विचार किया गया। मतदान अवधि के दौरान भविष्य में मतदान केंद्र के उपयोग के आधार पर मतदान केंद्र के समय में परिवर्तन हो सकता है। मतदान केंद्र के संचालन के घंटे मतदाता सूचना मार्गदर्शिका में प्रकाशित किए जाएंगे और किसी भी चुनाव से कम से कम 30 दिन पहले OCROV की वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे।

मतपत्र डालने के स्थानों के संचालन के घंटे

§4005(a)(1)(B)

Orange काउंटी के 123 स्थायी रूप से स्थापित मतपत्र ड्रॉप बॉक्स, जो पूरे काउंटी में स्थित हैं, चुनाव से 28 दिन पहले से ही सप्ताह के सातों दिन, 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, इस प्रकार ये बॉक्स नियमित व्यावसायिक घंटों के दौरान खुले रहने की आवश्यकता से कहीं अधिक खुले रहते हैं, सिवाय एक बॉक्स के, जिसे प्रतिदिन 12 घंटे उपलब्ध रहना आवश्यक है। OCROV मतपत्र संग्रहण आवृत्ति और अभिरक्षा श्रृंखला के लिए राज्य के नियमों से भी आगे निकल जाता है, जिसका वर्णन परिशिष्ट F में किया गया है।

यद्यपि OCROV प्रत्येक चुनाव के लिए न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए मतपत्र ड्रॉप बॉक्स का उपयोग करने की योजना बना रहा है, लेकिन यदि OCROV इन ड्रॉप बॉक्स का उपयोग करके मतपत्र ड्रॉपऑफ स्थानों की आवश्यक संख्या को पूरा करने में असमर्थ है, तो OCROV आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्टाफ युक्त मतपत्र ड्रॉपऑफ स्थानों का उपयोग कर सकता है। मतपत्र ड्रॉप बॉक्स और स्टाफ युक्त मतपत्र ड्रॉपऑफ स्थानों (यदि आवश्यक हो) के संचालन के घंटे मतदाता सूचना मार्गदर्शिका में प्रकाशित किए जाएंगे और किसी भी चुनाव से कम से कम 30 दिन पहले OCROV की वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे।

सुरक्षा और आकस्मिक योजनाएँ

मतदान केंद्रों पर व्यवधानों को रोकना और व्यवधान होने पर चुनाव की निरंतरता सुनिश्चित करना

§4005(a)(10)(I)(vi)(VIII)

OCROV मतदान केंद्रों पर व्यवधान को रोकने और निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय अपनाता है। व्यवधानों को रोकने और उनका समाधान करने के लिए OCROV की व्यापक योजना के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

- OCROV सेवा में व्यवधानों के लिए तैयारी करने हेतु व्यवसाय निरंतरता और घटना प्रतिक्रिया योजना बनाए रखता है।
- OCROV के पास एक कमांड सेंटर है, जिसमें Orange काउंटी शेरिफ विभाग का एक अधिकारी शामिल है, जो क्षेत्र से रिपोर्ट किए गए मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया देता है और स्थानीय कानून प्रवर्तन के साथ प्रतिक्रिया का समन्वय करता है।

- मतदान केन्द्र कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त, OCROV के पास क्षेत्र में पर्यवेक्षक भी होते हैं जो मतदान केन्द्र पर किसी घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
- OCROV के पास आपूर्ति और मतदान उपकरणों के साथ पूरे काउंटी में रणनीतिक रूप से तैनात वाहन हैं।
- यदि आवश्यकता हुई तो OCROV के पास तैनाती के लिए एक मोबाइल वोटिंग यूनिट तैयार है।

चुनाव स्टाफिंग

चुनाव बोर्ड के सदस्यों की संख्या

§4005(a)(10)(I)(vi)(IX)

व्यक्तिगत मतदान प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए, OCROV का अनुमान है कि उसे प्रति मतदान केंद्र औसतन सात चुनाव कार्यकर्ताओं या ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों (CSR) की आवश्यकता होगी। स्टाफिंग के सामान्य ढांचे में मतदाता चेक-इन में सहायता के लिए चार CSR, लीड के रूप में कार्य करने के लिए एक, तथा मतपत्र स्कैनिंग और लाइन प्रबंधन में सहायता के लिए दो सीएसआर शामिल हैं। कर्मचारियों को लंच और ब्रेक के दौरान एक-दूसरे को सहयोग देना भी आवश्यक है। प्रत्येक मतदान केन्द्र और चुनाव के लिए बोर्डों की संरचना अलग-अलग हो सकती है, क्योंकि OCROV चुनाव के प्रकार, ऐतिहासिक मतदान और मतदान केन्द्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर विचार करता है।

द्विभाषी चुनाव बोर्ड के सदस्यों की संख्या और बोली जाने वाली भाषाएँ

§4005(a)(6)(B)(i)

OCROV द्विभाषी चुनाव बोर्ड सदस्यों (CSRs) की संख्या निर्धारित करता है, जो मतदान केंद्र के स्थान और उस निर्वाचन क्षेत्र और सटे हुए निर्वाचन क्षेत्रों में उन मतदाताओं की संख्या का उपयोग करता है, जिन्होंने California चुनाव संहिता के धारा 14201 के उपधारा (a) और 1965 के संघीय मतदान अधिकार अधिनियम के धारा 203 के तहत आवश्यक भाषाओं में मतदान सामग्री का अनुरोध किया है (52 U.S.C. Sec. 10101 et seq.)¹. यद्यपि द्विभाषी CSR की संख्या और स्थान निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट कानूनी दिशानिर्देश नहीं हैं, फिर भी OCROV ने पाया है कि यह विधि उनके संबंधित समुदायों में भाषा सेवाएं प्रदान करने में प्रभावी है। OCROV सामुदायिक समूहों और LAAC से इनपुट लेना जारी रखेगा तथा उनके इनपुट के आधार पर भविष्य के चुनावों में कार्यप्रणाली को समायोजित कर सकता है। परिशिष्ट।

में हाल ही में हुए राष्ट्रपति आम चुनाव में द्विभाषी CSR की संख्या और स्थान प्रदर्शित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, OCROV वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रत्येक मतदान केंद्र पर भाषा सहायता प्रदान करता है। प्रत्येक मतदान केंद्र में एक उपकरण लगा होता है जो मतदाता को OCROV द्विभाषी स्टाफ से जोड़ सकता है, जो संघीय मतदान अधिकार अधिनियम 1965 (52 U.S.C. Sec. 10101 et seq.) की धारा 203 के अंतर्गत आवश्यक है। OCROV एक तीसरे पक्ष की टेलीफोन भाषा सहायता सेवा का उपयोग करने की क्षमता भी प्रदान करता है, जो एक CSR और एक मतदाता के बीच फोन पर चर्चा को सक्षम बनाता है, आवश्यक भाषाओं में जो कि California चुनाव कोड की धारा 14201 के उपखंड (a) और 1965 के संघीय मतदान अधिकार अधिनियम की धारा 203 के तहत हैं (52 U.S.C. Sec. 10101 et seq.) की धारा 203 के अंतर्गत आवश्यक है।

विकलांगता सेवाएं

सामान्य सेवाएं प्रदान की गईं, जिनमें उचित संशोधन और सुलभ मतदान मशीनें शामिल हैं

[§4005\(a\)\(2\)\(B\)](#), [§14282\(d\)](#), [§12280](#)

यह सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं कि मतदान केंद्र सुलभ हों, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 300-बिंदुओं का सुगम्यता सर्वेक्षण किया जाता है। अंतिम स्थानों का निर्धारण करते समय उच्च पहुंच वाले मतदान केन्द्रों को प्राथमिकता दी जाती है। ये सर्वेक्षण California के राज्य सचिव द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों को पूरा करते हैं और उससे भी आगे जाते हैं।
- यदि आवश्यक हो तो मतदान केन्द्रों पर पहुंच के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करने के लिए संशोधन किए जाते हैं।
- मतदान केन्द्र CSR को एक एप्लीकेशन के माध्यम से, जो फोटोग्राफिक साक्ष्य प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है, यह दस्तावेजीकरण करना आवश्यक है कि मतदान शुरू होने से पहले प्रत्येक दिन आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

- प्रत्येक मतदान केन्द्र पर कर्बसाइड मतदान की सुविधा उपलब्ध है, जिससे मतदाताओं को मतदान स्थल के बाहर नियमित मतदान करने की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पूरी हो जाती है।
- सभी मतदान केन्द्रों पर तीन सुगम्य मतपत्र अंकन उपकरण लगे हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति सुगम्य उपकरण का उपयोग करके निजी तौर पर अपने मतपत्र पर अंकन कर सकता है।
- सभी मतदान केन्द्रों को आवर्धक लेंस और हस्ताक्षर गाइड उपलब्ध कराए गए हैं।

मतदान केंद्र का डिज़ाइन

मतदाता की गोपनीयता और मतपत्र की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उपकरणों का लेआउट और प्लेसमेंट

§4005(a)(2)(A)(v)

OCROV प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए अलग-अलग लेआउट बनाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी मतदान उपकरण इस तरह से रखे जाएं कि मतदाता स्वतंत्र रूप से और निजी तौर पर अपना मतपत्र अंकित कर सके। लेआउट मतदाताओं की पहुंच संबंधी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए तथा प्रत्येक स्थान के अलग-अलग आकार और कमरे के आकार के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए। यद्यपि सभी मतदान केन्द्रों के लिए सामान्य लेआउट एक समान है, फिर भी मतदान उपकरण, चेक-इन स्टेशन और मतपत्र स्कैनर की व्यवस्था को सुगमता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कमरे के अनुसार समायोजित किया जाता है। परिशिष्ट J में मतदान केन्द्र का नमूना लेआउट दिया गया है।

मतदाता सहायता हॉटलाइन

चुनाव संहिता §4005(a)(10)(I)(vii)

मतदाता विकल्प अधिनियम के तहत एक टोल-फ्री मतदाता सहायता हेल्पलाइन की आवश्यकता होती है, जो चुनाव से 29 दिन पहले उपलब्ध हो, जो 888-OCVOTES (888-628-6837) है।

टोल-फ्री और सुलभ मतदाता हेल्पलाइन, भाषा समर्थन के साथ

§4005(a)(10)(I)(vii)

OCROV के पास एक निःशुल्क मतदाता हॉटलाइन है जो पूरे वर्ष उपलब्ध रहती है, तथा चुनाव के दौरान उपलब्ध रहने की आवश्यकता को पार कर जाती है। बधिर या कम सुनने वाले मतदाताओं को अनुरोध किए जाने पर तृतीय पक्ष सेवा द्वारा उपलब्ध कराए गए ASL दुभाषिया के माध्यम से सहायता उपलब्ध है।

OCROV स्टाफ वर्ष भर उपलब्ध रहता है और 1965 के संघीय मतदान अधिकार अधिनियम (52 U.S.C. Sec. 10101 et seq.) द्वारा आवश्यक भाषाओं में सहायता के लिए उपलब्ध रहता है। चुनाव संहिता धारा 14201 के तहत अपेक्षित भाषाओं में मतदाताओं को सहायता तीसरे पक्ष की अनुवाद सेवा के माध्यम से उपलब्ध है, जिसमें कानून द्वारा अपेक्षित नहीं कई अतिरिक्त भाषाओं में भी सहायता उपलब्ध है।

परिशिष्ट A

EAP सामुदायिक कार्यशालाओं का फ़्लायर



**चुनाव प्रशासन
योजना अद्यतन**

सामुदायिक कार्यशाला में भाग लें और भविष्य के चुनावों पर प्रतिक्रिया दें!

सामुदायिक कार्यशालाएँ

सामान्य सार्वजनिक कार्यशालाएँ

<p>शनिवार, 12 जुलाई, 2025 सुबह 10 बजे - 11:30 बजे San Juan Capistrano Community Center 25925 Camino Del Avion San Juan Capistrano, CA <i>अंग्रेजी में बैठक</i></p>	<p>मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 शाम 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक Southwest Senior Center 2201 W McFadden Ave Santa Ana, CA <i>अंग्रेजी में बैठक</i></p>	<p>शनिवार, 26 जुलाई, 2025 सुबह 10 बजे - 11:30 बजे Huntington Beach Central Library 7111 Talbert Ave, Huntington Beach, CA <i>अंग्रेजी में बैठक</i></p>	<p>मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 शाम 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक Norman P. Murray Community Center 24932 Veterans Way Mission Viejo, CA <i>अंग्रेजी में बैठक</i></p>	<p>शनिवार, 2 अगस्त, 2025 सुबह 10 बजे - 11:30 बजे Brea Community Center 695 Madison Way Brea, CA <i>अंग्रेजी में बैठक</i></p>
---	---	---	--	---

पहुँच और भाषा कार्यशालाएँ

<p>सोमवार, 14 जुलाई, 2025 शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक Buena Park Community Center 6688 Beach Blvd Buena Park, CA <i>कोरियाई भाषा में बैठक</i></p>	<p>बुधवार, 16 जुलाई, 2025 शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक Los Olivos Community Center 101 Alfonso Irvine, CA <i>अंग्रेजी में बैठक</i> <i>फ़ारसी अनुवाद उपलब्ध है</i></p>	<p>गुरुवार, 17 जुलाई, 2025 शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक Delhi Center 505 E Central Ave Santa Ana, CA <i>स्पैनिश में बैठक</i></p>	<p>शनिवार, 19 जुलाई, 2025 सुबह 10 बजे - 11 बजे Fountain Valley Recreation Center 16400 Brookhurst St Fountain Valley, CA <i>बियतनामी भाषा में बैठक</i></p>	<p>सोमवार, 21 जुलाई, 2025 शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक South Coast Chinese Cultural Center 9 Truman St Irvine, CA <i>चीनी भाषा में बैठक</i></p>
<p>बुधवार, 23 जुलाई, 2025 शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक Zoom के माध्यम से Zoom मीटिंग की जानकारी के लिए ocvote.gov/eap पर जाएं। <i>अंग्रेजी में बैठक</i> <i>ASL व्याख्या उपलब्ध</i></p>	<p>गुरुवार, 24 जुलाई, 2025 शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक West Anaheim Youth Center 320 S Beach Blvd Anaheim, CA <i>अंग्रेजी में बैठक</i> <i>तागालोग व्याख्या उपलब्ध है</i></p>	<p>सोमवार, 28 जुलाई, 2025 शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक Northwood Community Center 4531 Bryan Ave Irvine, CA <i>अंग्रेजी में बैठक</i> <i>जापानी अनुवाद उपलब्ध है</i></p>	<p>बुधवार, 30 जुलाई, 2025 शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक Buena Park Library 7150 La Palma Ave Buena Park, CA <i>अंग्रेजी में बैठक</i> <i>हिंदी अनुवाद उपलब्ध है</i></p>	<p>गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक East Anaheim Community Center 8201 E Santa Ana Canyon Rd, Anaheim, CA <i>अंग्रेजी में बैठक</i> <i>गुजराती अनुवाद उपलब्ध है</i></p>



**आसानी से वोट करें।
सुरक्षित वोट करें।**

ORANGE काउंटी मतदाता रजिस्ट्रार

यदि आपको सुविधा की आवश्यकता है, तो कृपया (714) 567-5039 पर कॉल करें या कम से कम 4 कार्य दिवस पहले ElectionServices@ocvote.gov पर ईमेल करें।

अधिक जानकारी के लिए ocvote.gov/eap पर जाएं।





छोटा समूह बैठकें

तारीख*	समूह
गुरुवार, 12 जून	California Common Cause
सोमवार, 16 जून	Orange County United Way
सोमवार, 16 जून	California State University, Fullerton
मंगलवार, 17 जून	Wellness Center
बुधवार, 18 जून	Overseas Community Care Network of Orange County
बुधवार, 18 जून	Korean American Federation of OC
बुधवार, 18 जून	Vietnamese Community of South CA
गुरुवार, 19 जून	Vietnamese Arts & Letters Association (VAALA)
गुरुवार, 19 जून	Conservative Patriots OC
शुक्रवार, 20 जून	Dayle McIntosh Center
सोमवार, 23 जून	Republican Party of Orange County
मंगलवार, 24 जून	OC Labor Federation
मंगलवार, 24 जून	UCI
मंगलवार, 24 जून	Asian American Senior Citizens Service Center
बुधवार, 25 जून	Alta Med
बुधवार, 25 जून	Korean American Seniors Association of O.C.
बुधवार, 25 जून	City Clerks Meeting
गुरुवार, 26 जून	Harbor Christian Church
गुरुवार, 26 जून	Orange County Aging Services Collaborative
शुक्रवार, 27 जून	Korean Community Services
शुक्रवार, 27 जून	Orange Coast League of Women Voters
सोमवार, 30 जून	Irvine Evergreen Chinese Senior Association
सोमवार, 30 जून	Orange County Business Council
सोमवार, 30 जून	Asian American Senior Citizens Service Center
मंगलवार, 1 जुलाई	NOCCD
मंगलवार, 1 जुलाई	Christ Pacific Church
सोमवार, 4 अगस्त	Salt & Light Calvary SOC
शुक्रवार, 8 अगस्त	UCI Democrats
गुरुवार, 14 अगस्त	Lincoln Club


*सभी तिथियां 2025 में हैं

परिशिष्ट B

मतदाताओं को भेजे गए नमूना पोस्टकार्ड

**VOTE IN THE NOVEMBER 5, 2024
PRESIDENTIAL GENERAL ELECTION**

**VOTER ASSISTANCE PHONE NUMBER
888-OCVOTES (888-628-6837)**




← **TO VIEW YOUR VOTER INFORMATION GUIDE
SCAN THIS BARCODE
OR VISIT [OCVOTE.GOV/VIG](https://ocvote.gov/vig)**

VOTING OPTIONS

For more info, visit ocvote.gov/options



Return your ballot by using a secure drop box, drop it off at any Vote Center, or return it by mail (postage paid). For more info, visit ocvote.gov/options



Vote early at one of our many Vote Centers between October 26 and November 5, 2024. For hours of operation and more info, visit ocvote.gov/votecenter



Need a replacement ballot? You can visit ocvote.gov/replacement




Sign up to track your ballot from start to finish at ocvote.gov/track



**ORANGE COUNTY
REGISTRAR OF VOTERS**

PO BOX 11298
SANTA ANA, CA 92711-1298

Phone: 714-567-7600
Website: ocvote.gov



NON-PROFIT ORG.
U.S. POSTAGE
PAID
SANTA ANA, CA
PERMIT NO. 77

PRESORTED

FORWARDING
SERVICE
REQUESTED

VOTE EASY. VOTE SECURE.



ORANGE COUNTY'S ELECTIONS ARE SAFE AND SECURE





**ORANGE COUNTY
REGISTRAR OF VOTERS**

How we protect ballots:



We use **Two Person Integrity** - every time we collect voted ballots from Vote Centers, ballot drop boxes, and the USPS we transport them using **teams of two**



We **verify voter signatures** on all vote-by-mail ballots & notify voters if there is an issue



We **count your vote** using **state-certified** election equipment and software tested each election here in **Orange County**



We **hand tally all ballots from at least 1% of all precincts** - randomly selected - to ensure the election equipment is **accurate**



For more details, scan code or visit:
ocvote.gov/vote-secure

v.249

37

परिशिष्ट C

वोट केंद्र मानदंड रैंकिंग

मानदंड रैंकिंग	0	1	2	3	4
कर्मचारियों के लिए शौचालय	नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सार्वजनिक पहुँच	गेटेड सुविधा	सुविधा कर्मचारियों पर निर्भर करता है	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई गेट मौजूद नहीं है
सड़क दृश्यता	कोई दृश्यता नहीं	लागू नहीं	आंशिक दृश्यता	लागू नहीं	मुख्य सड़क से सटे
आउटलेट	0 - 2	3 - 4	5+	लागू नहीं	लागू नहीं
सरल उपयोग	ADA सुलभ नहीं	प्रमुख संशोधन	मध्यम संशोधन	मामूली संशोधन	बिना संशोधन के प्रयोग योग्य
पार्किंग क्षमता	5 वर्ष से कम आयु वालों के लिए या सड़क पर पार्किंग	6 - 10	11 - 25	26 - 50	51+
कमरे का आकार (sq ft)	1,000 से कम	1,001 - 1,500	1,501 - 2,000	2,001 - 2,500	2,501+
ड्राइव-थ्रू के लिए स्थान	नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
बस स्टॉप की दूरी	1001ft से अधिक	751ft - 1000ft	501ft - 750ft	201ft - 500ft	200ft से कम
AC/हीटर	काम नहीं कर रहा	काम कर रहा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
प्रकाश व्यवस्था	काम नहीं कर रहा	लागू नहीं	मंद बिजली	लागू नहीं	अच्छी तरह से प्रकाशित
मतदान कक्ष तक पहुँच	साझा स्थान	लागू नहीं	अज्ञात	लागू नहीं	अनन्य उपयोग

उपयुक्तता मैट्रिक्स (केवल उदाहरण)

मानदंड	भारित रैंकिंग	Orange Public Library	Delhi Center	Lang Park
कर्मचारियों के लिए शौचालय	4	1	1	1
सार्वजनिक पहुँच	4	4	4	4
सड़क दृश्यता	3	4	4	4
आउटलेट	4	2	2	1
सरल उपयोग	4	3	2	1
पार्किंग क्षमता	3	4	3	3
कमरे का आकार (sq ft)	3	3	2	2
झाड़व-थू के लिए स्थान	1	1	1	0
बस स्टॉप की दूरी	2	2	3	0
AC/हीटर	2	1	1	1
प्रकाश व्यवस्था	2	4	4	2
मतदान कक्ष तक पहुँच	3	4	4	4
भारित स्कोर		94	88	76
भारित प्रतिशत		87%	83%	72%

परिशिष्ट D

2024 के राष्ट्रपति आम चुनाव के लिए मतदान केंद्रों की सूची

मतदान केन्द्र	प्रकार	पता
ALISO VIEJO		
Aliso Viejo City Hall	11-दिन	12 Journey
Soka University of America, Founders Hall	4-दिन	1 University Dr
ANAHEIM		
Downtown Anaheim Youth Center	11-दिन	225 S Philadelphia St
East Anaheim Community Center	11-दिन	8201 E Santa Ana Canyon Rd
West Anaheim Youth Center	11-दिन	320 S Beach Blvd
Anaheim Elementary School District (Drive Thru)	4-दिन	1001 S East St
Anaheim First Christian Church	4-दिन	520 W South St
Anaheim Union High School District	4-दिन	501 N Crescent Way
Annunciation Byzantine Catholic Church	4-दिन	995 N West St
Brookhurst Community Center	4-दिन	2271 W Crescent Ave
Canyon Hills Branch Library (Drive Thru)	4-दिन	400 S Scout Trail
Canyon Hills Presbyterian Church	4-दिन	190 S Fairmont Blvd
City Church	4-दिन	701 W Broadway
Key Campus	4-दिन	2000 W Ball Rd
Ponderosa Park Family Resource Center	4-दिन	320 E Orangewood Ave
Savanna School District	4-दिन	1330 S Knott Ave
St. Anthony Mary Claret Catholic Church	4-दिन	1450 E La Palma Ave
Trinity Lutheran Church	4-दिन	4101 E Nohl Ranch Rd
West Coast Islamic Society	4-दिन	1717 S Brookhurst St
BREA		
Brea Civic and Cultural Center, 2nd Floor	11-दिन	1 Civic Center Cir
Brea Community Center	4-दिन	695 Madison Way
Brea Glenbrook Clubhouse	4-दिन	1821 Greenbriar Ln
BUENA PARK		
Buena Park Community Center	11-दिन	6688 Beach Blvd
Boisseranc Park	4-दिन	7520 Dale St
Buena Park Library District, 2nd Floor	4-दिन	7150 La Palma Ave
Messiah Lutheran Church	4-दिन	6625 Dale St
COSTA MESA		
Costa Mesa Senior Center (Drive Thru)	11-दिन	695 W 19th St
Balearic Community Center	4-दिन	1975 Balearic Dr
Coast Community College District	4-दिन	1370 Adams Ave
Costa Mesa City Hall (Drive Thru)	4-दिन	77 Fair Dr

मतदान केन्द्र	प्रकार	पता
Norma Hertzog Community Center	4-दिन	1845 Park Ave
Sofia University	4-दिन	3333 Harbor Blvd
St. Monica Coptic Orthodox Church	4-दिन	234 Fischer Ave
CYPRESS		
Cypress Community Center	11-दिन	5700 Orange Ave
Cypress College, Bldg 18, School of Cont. Ed.	4-दिन	9200 Valley View St
Cypress School District	4-दिन	5816 Corporate Ave, Ste 190
DANA POINT		
Dana Point City Hall	4-दिन	33282 Golden Lantern St
OC Sailing & Events Center	4-दिन	34451 Ensenada Pl
FOUNTAIN VALLEY		
Freedom Hall at Mile Square Park	11-दिन	16801 Euclid St
Fountain Valley Recreation Center	4-दिन	16400 Brookhurst St
Fountain Valley School District, 2nd Floor	4-दिन	10055 Slater Ave
The Center at Founders Village	4-दिन	17967 Bushard St
FULLERTON		
American Red Cross Building	11-दिन	1207 N Lemon St
Fullerton Public Library (Drive Thru)	11-दिन	353 W Commonwealth Ave
CSUF Titan Student Union	4-दिन	800 N State College Blvd
Fullerton College, RM 844 Classified Lounge	4-दिन	321 E Chapman Ave
Fullerton Joint Union High School District	4-दिन	1051 W Bastanchury Rd
Public Works Maintenance Yard	4-दिन	1580 W Commonwealth Ave
St. Andrews Episcopal Church	4-दिन	1231 E Chapman Ave
St. Paul Lutheran Church	4-दिन	111 W Las Palmas Dr
GARDEN GROVE		
Garden Grove Sports and Recreation Center	11-दिन	13641 Deodara Dr
West Haven Park	11-दिन	12252 West St
Courtyard Center	4-दिन	12732 Main St
CTS Cement Manufacturing Corporation	4-दिन	12442 Knott St
Dimond & Shannon Mortuary	4-दिन	10630 Chapman Ave
Edgar Park Meeting Room	4-दिन	6202 Cerulean Ave
Garden Grove Host Lions Club	4-दिन	9860 Larson Ave
Living Spring Church	4-दिन	9851 Bixby Ave
Our Redeemer Church	4-दिन	12301 Magnolia St
The Islamic Society of Orange County	4-दिन	9752 13th St

मतदान केन्द्र	प्रकार	पता
HUNTINGTON BEACH		
Edison Community Center (Drive Thru)	11-दिन	21377 Magnolia St
Huntington Beach Central Library (Drive Thru)	11-दिन	7111 Talbert Ave
Murdy Community Center (Drive Thru)	11-दिन	7000 Norma Dr
Christ Pacific Church	4-दिन	20112 Magnolia St
City Gym and Pool	4-दिन	1600 Palm Ave
Golden West College - RCJTC Bldg	4-दिन	15744 Goldenwest St
Huntington Beach Civic Center, Lower Level	4-दिन	2000 Main St
IAMAW District Lodge 725, 2nd Floor	4-दिन	5402 Bolsa Ave
Main Street Branch Library	4-दिन	525 Main St
Ocean View School District	4-दिन	17200 Pinehurst Ln
Resurrection Lutheran Church	4-दिन	9812 Hamilton Ave
St. Wilfrid's Episcopal Church	4-दिन	18631 Chapel Ln
The Connection Church	4-दिन	17581 Newland St
IRVINE		
Irvine Civic Center (Drive Thru)	11-दिन	1 Civic Center Plz
Los Olivos Community Center	11-दिन	101 Alfonso
Portola Springs Community Center	11-दिन	900 Tomato Springs
Christ Our Redeemer A.M.E. Church	4-दिन	45 Tesla
Cypress Community Park	4-दिन	255 Visions
Deerfield Community Center	4-दिन	55 Deerwood W
Great Park, Hangar 244	4-दिन	8000 Great Park Blvd
Harvard Community Center	4-दिन	14701 Harvard Ave
Irvine Valley College - Student Services Center, 2nd Floor	4-दिन	5500 Irvine Center Dr
Las Lomas Community Center	4-दिन	10 Federation Way
Northwood Community Center (Drive Thru)	4-दिन	4531 Bryan Ave
Quail Hill Community Center	4-दिन	39 Shady Canyon Dr
UCI Student Center	4-दिन	311 W Peltason Dr
University Community Center	4-दिन	1 Beech Tree Ln
University Hills Community Center	4-दिन	1083 California Ave
LA HABRA		
La Habra Community Center (Drive Thru)	11-दिन	101 W La Habra Blvd
La Habra City School District	4-दिन	500 N Walnut St
La Habra United Methodist Church	4-दिन	631 N Euclid St
LA PALMA		
La Palma Community Center	4-दिन	7821 Walker St
LADERA RANCH		
Oak Knoll Village Clubhouse	4-दिन	28192 O'Neill Dr

मतदान केन्द्र	प्रकार	पता
LAGUNA BEACH		
Laguna Beach Community & Susi Q Center, 2nd Floor	11-दिन	380 3rd St
Lang Park	4-दिन	21540 Wesley Dr
LAGUNA HILLS		
Laguna Hills Community Center	11-दिन	25555 Alicia Pkwy
Moulton Plaza, Suite F	4-दिन	23685 Moulton Pkwy, Ste F
The Village at Nellie Gail Ranch, Unit A	4-दिन	26552 Moulton Pkwy, Unit A
LAGUNA NIGUEL		
Laguna Niguel City Hall	11-दिन	30111 Crown Valley Pkwy
First Church of Christ, Scientist	4-दिन	29012 Aloma Ave
Marina Hills Recreation Center	4-दिन	31461 Parc Vista
Sea Country Senior and Community Center (Drive Thru)	4-दिन	24602 Aliso Creek Rd
LAGUNA WOODS		
Laguna Woods City Hall	4-दिन	24264 El Toro Rd
LAKE FOREST		
Lake Forest Senior Center Clubhouse (Drive Thru)	11-दिन	100 Civic Center Dr
El Toro Branch Library (Drive Thru)	4-दिन	24672 Raymond Way
El Toro Water District	4-दिन	24251 Los Alisos Blvd
Foothill Ranch Library	4-दिन	27002 Cabriole
Lake Forest Sports Park	4-दिन	28000 Rancho Pkwy
LOS ALAMITOS		
Los Alamitos Unified School District	4-दिन	10293 Bloomfield St
MIDWAY CITY		
Midway City Community Center	4-दिन	14900 Park Ln
MISSION VIEJO		
Mission Viejo City Hall (Drive Thru)	11-दिन	200 Civic Center
Fairhaven Memorial Services	4-दिन	27856 Center Dr
Mission Viejo Church of Christ	4-दिन	26558 Marguerite Pkwy
Montanoso Recreation Center	4-दिन	25800 Montanoso Dr
Norman P. Murray Community & Senior Center	4-दिन	24932 Veterans Way
Orange County Islamic Foundation (OCIF)	4-दिन	23581 Madero
Saddleback Valley Unified School District	4-दिन	25631 Peter A Hartman Way
NEWPORT BEACH		
Newport Beach Civic Center	11-दिन	100 Civic Center Dr
Coastline College - RM 320, 3rd Floor	4-दिन	1515 Monrovia Ave
Harbor Christian Church	4-दिन	2401 Irvine Ave


मतदान केन्द्र	प्रकार	पता
Marina Park Community Center, 2nd Floor	4-दिन	1600 W Balboa Blvd
Newport Coast Community Center (Drive Thru)	4-दिन	6401 San Joaquin Hills Rd
OASIS Senior Center (Corona Del Mar)	4-दिन	801 Narcissus Ave
St. Mark Presbyterian Church	4-दिन	2200 San Joaquin Hills Rd
ORANGE		
El Modena Branch Library	11-दिन	380 S Hewes St
Orange Public Library	11-दिन	407 E Chapman Ave
Chapman University, Argyros Forum	4-दिन	386 N Center St
El Camino Real Park	4-दिन	400 N Main St
Killefer Park Recreation Center	4-दिन	615 N Lemon St
Santiago Canyon College, Bldg U-104	4-दिन	8045 E Chapman Ave
Sports Center at Grijalva Park (Drive Thru)	4-दिन	368 N Prospect St
Steve Ambriz Memorial Park	4-दिन	611 Riverbend Pkwy
Taft Avenue Community Church	4-दिन	1350 E Taft Ave
PLACENTIA		
Backs Community Building	11-दिन	201 N Bradford Ave
The Episcopal Church of the Blessed Sacrament	4-दिन	1314 N Angelina Dr
Yorba Linda Water District	4-दिन	1717 E Miraloma Ave
RANCHO MISSION VIEJO		
Sendero Guest House	4-दिन	11 Briosso St
RANCHO SANTA MARGARITA		
Rancho Santa Margarita Branch Library	11-दिन	30902 La Promesa
Bell Tower Regional Community Center	4-दिन	22232 El Paseo
Rancho Life Church and Cafe	4-दिन	30162 Tomas
ROSSMOOR		
Rossmoor Park Community Center	4-दिन	3232 Hedwig Rd
SAN CLEMENTE		
San Clemente Community Center	11-दिन	100 N Calle Seville
Shorecliffs Terrace - Mobile Home Park	4-दिन	3000 Calle Nuevo
St. Andrew's by-the-Sea UMC	4-दिन	2001 Calle Frontera
The Volare Hotel	4-दिन	111 Avenida de la Estrella
SAN JUAN CAPISTRANO		
Reata Park & Event Center	11-दिन	28632 Ortega Hwy
Capistrano Unified School District	4-दिन	33122 Valle Rd
La Sala Auditorium	4-दिन	31495 El Camino Real
South Coast Christian Church	4-दिन	31501 Avenida Los Cerritos

मतदान केन्द्र	प्रकार	पता
SANTA ANA		
Delhi Center (Drive Thru)	11-दिन	505 E Central Ave
Jerome Center	11-दिन	726 S Center St
Orange County Registrar of Voters	11-दिन	1300 S Grand Ave, Bldg C
Albert D. Salgado Community Center	4-दिन	706 N Newhope St
Centennial Education Center	4-दिन	2900 W Edinger Ave
Church of the Foothills	4-दिन	19211 Dodge Ave
El Salvador Community Center	4-दिन	1825 W Civic Center Dr
HCA - Public Health Learning Center	4-दिन	1729 W 17th St, Bldg E
Latino Health Access	4-दिन	450 W 4th St
McFadden Institute of Technology	4-दिन	2701 S Raitt St
Orange County First Assembly of God (Drive Thru)	4-दिन	1440 E Santa Clara Ave
Orange County Musicians Union	4-दिन	2050 S Main St
Roosevelt-Walker Community Center	4-दिन	816 E Chestnut Ave
Second Baptist Church	4-दिन	4300 Westminster Ave
Suavecito Pomade HQ	4-दिन	2831 W 1st St
SEAL BEACH		
City of Seal Beach Fire Station 48	4-दिन	3131 N Gate Rd
Seal Beach Senior Center	4-दिन	707 Electric Ave
SILVERADO		
Saddleback Gateway - Library of the Canyons	4-दिन	7531 E Santiago Canyon Rd
STANTON		
Stanton Central Park (Drive Thru)	4-दिन	10660 Western Ave
Stanton Community Center at City Hall	4-दिन	7800 Katella Ave
TRABUCO		
Trabuco Canyon Water District	4-दिन	32003 Dove Canyon Dr
TUSTIN		
Clifton C. Miller Community Center (Drive Thru)	11-दिन	300 Centennial Way
Aldersgate United Methodist Church	4-दिन	1201 Irvine Blvd
Columbus Tustin Activity Center	4-दिन	17522 Beneta Way
Community Center at The Market Place, 2nd floor	4-दिन	2961 El Camino Real
The Salvation Army Tustin Ranch Corps	4-दिन	10200 Pioneer Rd
WESTMINSTER		
Miriam Warne Community Building	11-दिन	14491 Beach Blvd
Westminster Branch Library (Drive Thru)	4-दिन	8180 13th St
Westminster Community Services Building	4-दिन	8200 Westminster Blvd
Willmore Elem. School - Learning Exchange Bldg	4-दिन	7122 Maple St

मतदान केन्द्र	प्रकार	पता
YORBA LINDA		
Yorba Linda Library	11-दिन	4852 Lakeview Ave
Church of Grace	4-दिन	22653 Old Canal Rd
Danish Lutheran Church & Cultural Center	4-दिन	16881 Bastanchury Rd
Grace Evangelical Lutheran Church	4-दिन	6550 Fairmont Blvd
Thomas Lasorda Jr Field House (Drive Thru)	4-दिन	4701 Casa Loma Ave

2024 के राष्ट्रपति आम चुनाव के मतदान केंद्रों का नक्शा

मतदान केंद्र – 2024 आम चुनाव



परिशिष्ट E

2024 के राष्ट्रपति आम चुनाव के लिए मतपत्र ड्रॉप बॉक्स स्थानों की सूची

ड्रॉप बॉक्स	प्रकार	पता
ALISO VIEJO		
Aliso Viejo City Hall	वाँक-अप	12 Journey
Iglesia Park Community Center	वाँक-अप	24671 Via Iglesia
ANAHEIM		
ARTIC	वाँक-अप	2626 E Katella Ave
Boysen Park	वाँक-अप	951 S State College Blvd
Chaparral Park	वाँक-अप	1770 W Broadway
East Anaheim Community Center	वाँक-अप	8201 E Santa Ana Canyon Rd
Euclid Branch Library	वाँक-अप	1340 S Euclid St
Granada Square	वाँक-अप	1048 N State College Blvd
Magnolia Baptist Church	केवल ड्राइव-अप	720 S Magnolia Ave
Peralta Canyon Park	वाँक-अप	115 N Pinney Dr
Ponderosa Park Family Resource Center	वाँक-अप	320 E Orangewood Ave
Sage Park	वाँक-अप	1313 W Lido Pl
St. Boniface Catholic Church	वाँक-अप	120 N Janss St
St. Justin Martyr's Catholic Church	केवल ड्राइव-अप	2050 W Ball Rd
BREA		
Brea Civic & Cultural Center	ड्राइव-अप और वाँक-अप	1 Civic Center Cir
Brea Sports Park	वाँक-अप	3333 E Birch St
BUENA PARK		
Buena Park Metrolink Station	वाँक-अप	8400 Lakeknoll Dr
Ehlers Event Center	वाँक-अप	8150 Knott Ave
The Source OC	वाँक-अप	6940 Beach Blvd
COSTA MESA		
Boys & Girls Club of Costa Mesa	वाँक-अप	2131 Tustin Ave
Coastal Heights Senior Living	केवल ड्राइव-अप	2283 Fairview Rd
Mesa Verde Branch Library	वाँक-अप	2969 Mesa Verde Dr E
Mesa Water District	वाँक-अप	1965 Placentia Ave
TeWinkle Park Athletic Complex	वाँक-अप	980 Arlington Dr
The Esplanade	केवल ड्राइव-अप	3001 Red Hill Ave
CYPRESS		
Cypress Community Center	वाँक-अप	5700 Orange Ave
Veterans Park	वाँक-अप	4554 Avenida Granada

ड्रॉप बॉक्स	प्रकार	पता
DANA POINT		
Dana Point City Hall	वाँक-अप	33282 Golden Lantern St
Salt Creek Beach Parking	वाँक-अप	33333 Pacific Coast Hwy
FOUNTAIN VALLEY		
Fountain Valley Branch Library	वाँक-अप	17635 Los Alamos St
The Center at Founders Village	वाँक-अप	17967 Bushard St
FULLERTON		
A.R. Mart	वाँक-अप	1701 W Orangethorpe Ave
CSUF Parking Lot G	ड्राइव-थू और वाँक-अप	800 N State College Blvd
Fullerton College	वाँक-अप	321 E Chapman Ave
Fullerton Fire Station No. 6	वाँक-अप	2691 Rosecrans Ave
Fullerton Metrolink Station	वाँक-अप	120 E Santa Fe Ave
Fullerton Municipal Airport	वाँक-अप	4011 W Commonwealth Ave
GARDEN GROVE		
Chapman Branch Library	वाँक-अप	9182 Chapman Ave
GGUSD Assessment and Registration Ctr & FRC	वाँक-अप	13611 Clinton St
GGUSD Education Center	वाँक-अप	10331 Stanford Ave
Magnolia Park Family Resource Center	वाँक-अप	11402 Magnolia St
West Grove Park	वाँक-अप	5372 Cerulean Ave
HUNTINGTON BEACH		
5 Points Plaza	वाँक-अप	18591 Main St
Golden West College	वाँक-अप	15744 Goldenwest St
Harbour View Park	वाँक-अप	16600 Saybrook Ln
HB Professional Plaza	वाँक-अप	714 Adams Ave
Huntington Beach Civic Center	ड्राइव-अप और वाँक-अप	2000 Main St
Huntington Professional Plaza	वाँक-अप	20932 Brookhurst St
Main Street Branch Library	वाँक-अप	525 Main St
Vista Centre	वाँक-अप	17483 Beach Blvd
IRVINE		
Harvard Community Center	वाँक-अप	14701 Harvard Ave
Heritage Park Community Center	वाँक-अप	14301 Yale Ave
Irvine Metrolink Station	वाँक-अप	15215 Barranca Pkwy
Orange County United Way	केवल ड्राइव-अप	18012 Mitchell S
Rancho Senior Center	वाँक-अप	3 Ethel Coplen Way
Trabuco Center	वाँक-अप	5701 Trabuco Rd
Turtle Rock Community Park	वाँक-अप	1 Sunnyhill


ड्रॉप बॉक्स	प्रकार	पता
UCI Parking Lot 5	केवल ड्राइव-थू	405 W Peltason Dr
University Park Branch Library	वाँक-अप	4512 Sandburg Way
Woodbury Community Park	वाँक-अप	130 Sanctuary
LA HABRA		
La Habra Branch Library	वाँक-अप	221 E La Habra Blvd
La Habra Family Resource Center	वाँक-अप	501 S Idaho St
LA PALMA		
La Palma City Hall	ड्राइव-अप और वाँक-अप	7822 Walker St
LADERA RANCH		
Ladera Ranch Branch Library	वाँक-अप	29551 Sienna Pkwy
Orange County Fire Authority Station 58	वाँक-अप	58 Station Way
LAGUNA BEACH		
Laguna Beach Branch Library	वाँक-अप	363 Glenneyre St
LAGUNA HILLS		
Laguna Hills Community Center	वाँक-अप	25555 Alicia Pkwy
LAGUNA NIGUEL		
Laguna Niguel Library	वाँक-अप	30341 Crown Valley Pkwy
Laguna Niguel/Mission Viejo Metrolink Station	वाँक-अप	28200 Forbes Rd
Orange County Fire Authority Station 49	वाँक-अप	31461 Golden Lantern
LAGUNA WOODS		
Laguna Woods City Hall	वाँक-अप	24264 El Toro Rd
LAKE FOREST		
Heroes Park	वाँक-अप	25420 Jeronimo Rd
Lake Forest Sports Park	वाँक-अप	28000 Rancho Pkwy
South Orange County Family Resource Center	वाँक-अप	22481 Aspan St
LOS ALAMITOS		
Los Alamitos Community Center	वाँक-अप	10911 Oak St
MISSION VIEJO		
Florence Joyner Olympiad Park	केवल ड्राइव-अप	22761 Olympiad Rd
Norman P. Murray Community Center	वाँक-अप	24932 Veterans Way
Pavion Park	वाँक-अप	24051 Pavion
NEWPORT BEACH		
Bob Henry Park	वाँक-अप	900 Dover Dr
Newport Beach Public Library	केवल ड्राइव-अप	1000 Avocado Ave
OASIS Senior Ctr Auxiliary Parking Lot	केवल ड्राइव-अप	NW Corner 5th Ave & Marguerite Ave
Sidewalk - Corner of Avon St & Riverside Ave	वाँक-अप	NW Avon & Riverside Ave

ड्रॉप बॉक्स	प्रकार	पता
ORANGE		
County of Orange Social Services Agency	वाँक-अप	800 N Eckhoff St
El Modena Branch Library	ड्राइव-अप और वाँक-अप	380 S Hewes St
Orange Public Library	ड्राइव-अप और वाँक-अप	407 E Chapman Ave
Taft Branch Library	ड्राइव-अप और वाँक-अप	740 E Taft Ave
Santiago Canyon College	वाँक-अप	8045 E Chapman Ave
PLACENTIA		
Koch Recreation Center	वाँक-अप	2210 Valencia Ave
Whitten Center	वाँक-अप	900 S Melrose St
RANCHO SANTA MARGARITA		
Calvary Chapel Rancho Santa Margarita	वाँक-अप	30615 Avenida De Las Flores
Rancho Santa Margarita Library	वाँक-अप	30902 La Promesa
SAN CLEMENTE		
Jim Johnson Memorial Sports Park	वाँक-अप	560 Avenida Vista Hermosa
San Clemente City Hall	केवल ड्राइव-अप	910 Calle Negocio
San Clemente Municipal Golf Course	केवल ड्राइव-अप	150 E Avenida Magdalena
SAN JUAN CAPISTRANO		
La Sala Auditorium	वाँक-अप	31495 El Camino Real
SANTA ANA		
1433 S Bristol St Parking Lot	वाँक-अप	1433 S Bristol St
Albert D. Salgado Community Center	वाँक-अप	706 N Newhope St
AltaMed	वाँक-अप	1400 N Main St
Bomo Koral Park	वाँक-अप	900 W MacArthur Blvd
Carl Thornton Park	वाँक-अप	1801 W Segerstrom Ave
Centennial Education Center	ड्राइव-अप और वाँक-अप	2900 W Edinger Ave
County Administration South	वाँक-अप	601 N Ross St
Memorial Park	वाँक-अप	2102 S Flower St
OC Health Care Agency	वाँक-अप	1725 W 17th St
Orange County Registrar of Voters	ड्राइव-अप और वाँक-अप	1300 S Grand Ave, Bldg C
Orangewood Foundation	केवल ड्राइव-थ्रू	1575 E 17th St
Santa Ana Regional Transportation Center	वाँक-अप	1000 E Santa Ana Blvd

ड्रॉप बॉक्स	प्रकार	पता
SEAL BEACH		
Leisure World Seal Beach	ड्राइव-अप और वाँक-अप	13531 Saint Andrews Dr
Mary Wilson Branch Library	वाँक-अप	707 Electric Ave
STANTON		
Stanton Branch Library	वाँक-अप	7850 Katella Ave
TRABUCO		
Concourse Park	वाँक-अप	18931 Saddleback Ranch Rd
TUSTIN		
Boys & Girls Club of Tustin	वाँक-अप	580 W 6th St
OC Animal Care	ड्राइव-अप और वाँक-अप	1630 Victory Rd
Tustin Metrolink Station	वाँक-अप	2975 Edinger Ave
Tustin Sports Park	वाँक-अप	12850 Robinson Dr
VILLA PARK		
Villa Park City Hall	वाँक-अप	17855 Santiago Blvd
WESTMINSTER		
Bolsa Chica Park	वाँक-अप	13660 University St
Korean Martyrs Catholic Center	वाँक-अप	7655 Trask Ave
Tony Lam Park (Formerly Park West Park)	वाँक-अप	8301 W McFadden St
West County Professional & Medical Center	वाँक-अप	14120 Beach Blvd
YORBA LINDA		
Bryant Ranch Park	वाँक-अप	24705 Paseo De Toronto
Yorba Linda Arroyo Park/Police Services	वाँक-अप	20994 Yorba Linda Blvd
Yorba Linda City Hall	केवल ड्राइव-अप	4845 Casa Loma Ave

2024 के राष्ट्रपति आम चुनाव के मतपत्र ड्रॉप बॉक्स का नक्शा

मतपत्र ड्रॉप बॉक्स – 2024 आम चुनाव



परिशिष्ट F

मतपत्र ड्रॉप बॉक्स सुरक्षा और पहुंच

सुरक्षा सुविधाएँ

- भारी-भरकम स्टील निर्माण, जिसका वजन लगभग 1,000 पाउंड है।
- सभी मतपत्र बॉक्स कंक्रीट पैड पर बोल्ट से लगाए गए हैं। बक्सों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि एंकर बोल्ट तक बक्से के बाहर से पहुंच न हो सके।
- सभी मतपत्र बॉक्स अग्नि शमन उपकरण से सुसज्जित हैं।
- मेल स्लॉट को केवल पतले लिफाफे को फिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे अवांछित वस्तुओं को बॉक्स में रखने से रोका जा सके।
- इसे बिना किसी पकड़ बिंदु के डिजाइन किया गया है जिससे जबरन प्रवेश की अनुमति मिल सके। फ्लश लॉक और दरवाजे प्रभाव और छेड़छाड़ का प्रतिरोध करते हैं।
- प्रवेश के सभी बिंदु केवल तभी बंद रहेंगे जब दरवाजे सुरक्षित रूप से बंद कर दिए जाएंगे, जिससे असुरक्षित, लावारिस बक्से को रोका जा सकेगा।
- चुनाव की रात को सभी मतपत्र बॉक्सों पर कर्मचारी तैनात कर दिए जाते हैं, तथा मतदान अवधि समाप्त होने पर रात्रि 8 बजे उन्हें बंद कर दिया जाता है।
- मतदान अवधि के दौरान राज्य नियामक आवश्यकताओं से अधिक मतपत्रों को दो मतदाता रजिस्ट्रार कर्मचारियों द्वारा कस्टडी प्रक्रियाओं की कड़ी श्रृंखला का पालन करते हुए नियमित रूप से उठाया जाता है।
- मतपत्र संग्रहण टीमों का प्रबंधन कार्यालय में OCROV स्टाफ द्वारा किया जाता है, जब भी टीमों मैदान में होती हैं, रेडियो संचार और GPS लोकेशन ट्रैकिंग का उपयोग किया जाता है। टीमों को फोटोग्राफिक साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा कि प्रत्येक मतपत्र ड्रॉप बॉक्स पर प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।


पहुँच सुविधाएँ

- स्थापना से पहले, सभी स्थानों का सर्वेक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ADA पहुँच योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
- मतपत्र ड्रॉप बॉक्स को एक हाथ से आसानी से संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- मेल स्लॉट सुलभ ऊंचाई पर स्थित हैं।
- मतपत्र ड्रॉप बॉक्स में दृश्यता और सुपाठ्यता के लिए चमकीले रंग और उच्च कंट्रास्ट वाला पाठ होता है।
- मतपत्र ड्रॉप बॉक्स को "वॉक-अप" मेल स्लॉट, "ड्राइव-अप" मेल स्लॉट, या दोनों के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ड्राइव-अप मेल स्लॉट को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि वहां तक वाहन से बाहर निकले बिना पहुँचा जा सके।




परिशिष्ट G


2024 आम चुनाव – तिथि के अनुसार व्यक्तिगत मतदान



प्रति घंटा उपस्थिति – पहले सात दिन



कुल प्रति घंटा उपस्थिति – अंतिम शनिवार से सोमवार तक



परिशिष्ट H

चुनाव प्रशासन योजना अद्यतन: सार्वजनिक इनपुट प्रक्रिया

परिचय

चुनाव प्रशासन योजना (EAP) एक मार्गदर्शक दस्तावेज है जो बताता है कि Orange काउंटी मतदाता रजिस्ट्रार (OCROV) California मतदाता विकल्प अधिनियम (वीसीए) के तहत चुनाव कैसे आयोजित करता है। EAP प्रमुख चुनाव प्रशासन क्षेत्रों को संबोधित करता है, जिसमें मतदाता शिक्षा और आउटरीच, मतदान केंद्र और मतपत्र ड्रॉप बॉक्स संचालन, पहुंच और भाषा सेवाएं, चुनाव सुरक्षा और आकस्मिक योजना शामिल हैं। 2026-2029 EAP अपडेट के भाग के रूप में, ऑरेंज काउंटी के मतदाताओं ने इस बारे में फीडबैक दिया कि चुनाव किस प्रकार संचालित किए जाते हैं, समुदाय को मतदान के बारे में कैसे शिक्षित किया जाता है, तथा मतदान तक पहुंच को किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है।

सार्वजनिक भागीदारी EAP अद्यतन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। OCROV ने विभिन्न तरीकों से जनता की प्रतिक्रिया एकत्रित करने का प्रयास किया, जिससे लोगों के लिए अपने लिए सुविधाजनक तरीके से भागीदारी करना संभव हो सके। OCROV ने सार्वजनिक फीडबैक प्राप्त करने के लिए कई तरीके पेश किए, जिनमें ऑनलाइन फीडबैक विकल्प, छोटे समूह सामुदायिक बैठकें और सामुदायिक कार्यशालाएं शामिल हैं।

OCROV ने अद्यतन EAP का मसौदा तैयार करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार किया:

- सार्वजनिक इनपुट - समुदाय की प्रतिक्रिया और सिफारिशें एकत्र करना।
- कानून - संघीय, राज्य और स्थानीय कानूनों का पूर्ण अनुपालन बनाए रखना।
- बजट - सार्वजनिक धन का जिम्मेदार प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- सर्वोत्तम प्रथाएँ - प्रभावी प्रक्रियाओं और नवाचार का पालन करना।
- डेटा - प्रवृत्तियों और विश्लेषण के आधार पर डेटा-संचालित निर्णय लेना।

यह रिपोर्ट समुदाय की प्रतिक्रिया का सारांश प्रस्तुत करती है, तथा सभी माध्यमों से प्राप्त अंतर्दृष्टि को समाहित करती है। इस सार्वजनिक इनपुट से EAP के मसौदे को अद्यतन करने में मदद मिली।

प्रतिक्रिया प्रदान करने के तरीके

व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए EAP के लिए जनता की प्रतिक्रिया कई माध्यमों से एकत्रित की गई। समुदाय के सदस्यों ने ऑनलाइन, सामुदायिक संगठनों के साथ छोटे समूह की बैठकों में, तथा सार्वजनिक कार्यशालाओं में व्यक्तिगत रूप से अपने विचार साझा किए। जन संपर्क कार्यक्रम आयोजित करने से पहले, OCROV ने सामुदायिक चुनाव कार्य (CEW) समूह, भाषा सुगम्यता सलाहकार समिति (LAAC) और मतदान सुगम्यता सलाहकार समिति (VAAC) के सदस्यों के साथ एक विजनिंग बैठक भी आयोजित की। विजनिंग बैठक से सार्वजनिक इनपुट के लिए EAP के प्राथमिक तत्वों की पहचान करने में मदद मिली, जिससे यह पता चला कि छोटे समूह की बैठकों और सामुदायिक कार्यशालाओं को किस प्रकार डिजाइन किया गया।

ऑनलाइन प्रतिक्रिया

आम जनता OCROV के सोशल मीडिया चैनलों से जुड़कर, ईमेल भेजकर, या EAP वेबपेज पर ऑनलाइन सार्वजनिक इनपुट फॉर्म भरकर अपना इनपुट साझा कर सकती है। अगस्त 2025 तक, इन ऑनलाइन विकल्पों के माध्यम से कुल 28 टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गईं।

छोटे समूह सामुदायिक बैठकें

12 जून 2025 से शुरू होकर, OCROV ने EAP पर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ सामुदायिक हितधारकों और समूहों के साथ छोटे समूह बैठकें आयोजित कीं। बैठकें वर्चुअल और व्यक्तिगत रूप से आयोजित की गईं और इसमें EAP के प्रमुख तत्वों पर निर्देशित चर्चा शामिल थी। OCROV ने 200 से अधिक विविध संगठनों तक पहुंच बनाई, जिनमें धर्म-आधारित समूह, समुदाय-आधारित संगठन, तथा कॉलेज और विश्वविद्यालय शामिल थे। 30 संगठनों के 200 से अधिक व्यक्तियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों से वर्तमान योजना के बारे में जनता की समझ में अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई तथा सार्वजनिक कार्यशाला की योजना बनाने में मार्गदर्शन मिला।

सामुदायिक कार्यशालाएँ

12 जुलाई और 2 अगस्त, 2025 के बीच, OCROV ने ऑरेंज काउंटी में मतदाताओं, समुदाय के सदस्यों और संगठनात्मक भागीदारों को शामिल करने के लिए 15 सामुदायिक कार्यशालाओं का आयोजन किया। इस श्रृंखला में पूरे काउंटी में भौगोलिक रूप से वितरित पांच सामान्य कार्यशालाएं और दस लक्षित कार्यशालाएं शामिल थीं - जिनमें नौ भाषा-विशिष्ट कार्यशालाएं और सुगम्यता आवश्यकताओं वाले मतदाताओं के लिए एक आभासी कार्यशाला शामिल थी।


इसमें समुदाय आधारित संगठनों, वकालत समूहों और आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। OCROV को इंटरैक्टिव स्टेशनों, समूह चर्चा, स्टिकी नोट्स और लिखित कार्यपुस्तिकाओं के माध्यम से 750 से अधिक व्यक्तिगत टिप्पणियां प्राप्त हुईं।

प्रत्येक सामान्य कार्यशाला में EAP का परिचय देने वाली एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद पांच इंटरैक्टिव स्टेशन थे, जिनमें से प्रत्येक को सामुदायिक सलाहकार समूहों द्वारा पहचाने गए EAP के एक प्राथमिकता वाले घटक के साथ संरेखित किया गया। उपस्थित लोगों ने प्रत्येक स्टेशन पर सुविधा प्रदाताओं के साथ बातचीत की तथा मौखिक टिप्पणियों, स्टिकी नोट्स और लिखित कार्यपुस्तिकाओं के माध्यम से इनपुट प्रदान किए।


भाषा-विशिष्ट और सुगम्यता पर केन्द्रित कार्यशालाएं निर्देशित समूह चर्चा प्रारूप में आयोजित की गईं। मतदान अधिकार अधिनियम धारा 203 के अंतर्गत संघीय रूप से आवश्यक भाषाओं में चार कार्यशालाएं आयोजित की गईं: चीनी, कोरियाई, स्पेनिश और वियतनामी। California चुनाव संहिता धारा 14201 के अंतर्गत राज्य द्वारा अपेक्षित भाषा समुदायों के लिए पांच अतिरिक्त कार्यशालाएं आयोजित की गईं। ये कार्यशालाएं अंग्रेजी में आयोजित की गईं तथा संबंधित भाषा में लाइव व्याख्या भी उपलब्ध कराई गईं: फ़ारसी, गुजराती, हिन्दी, जापानी और तागालोग। सुगम्यता पर केन्द्रित एक वर्चुअल कार्यशाला अंग्रेजी में आयोजित की गईं, जिसमें ASL व्याख्या भी उपलब्ध थी।

कार्यशालाओं में जन भागीदारी

सामान्य कार्यशालाओं में उपस्थिति



भाषा और सुगम्यता कार्यशालाओं में उपस्थिति



सामुदायिक कार्यशालाओं को बढ़ावा देने के लिए आउटरीच

OCROV ने EAP प्रक्रिया में भाग लेने के अवसरों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए एक बहुआयामी आउटरीच रणनीति लागू की। आउटरीच में लक्षित ईमेल, समुदाय-आधारित संगठनों को फोन कॉल, सोशल मीडिया अभियान, क्षेत्र में प्रचार प्रयास और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान प्रचार शामिल थे। सभी आउटरीच रणनीतियाँ, सामग्री और संचार संघीय और राज्य कानून के तहत आवश्यक भाषाओं में प्रदान किए गए थे।

आउटरीच रणनीतियों का विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है।

- **प्रेस विज्ञप्ति:** सामुदायिक कार्यशालाओं को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी और भाषाई मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें सभी भाषाओं में अनुवादित प्रेस विज्ञप्तियां शामिल थीं।
- **ईमेल संचार:** सार्वजनिक कार्यशालाओं को बढ़ावा देने के लिए, काउंटी भर में सभी मतदाताओं को ईमेल भेजे गए, जिन्होंने अपने मतदाता पंजीकरण शपथपत्र के साथ ईमेल पता भी दिया था। EAP अपडेट इच्छुक पार्टियों की सूची की सदस्यता लेने वाले सभी लोगों को ईमेल भी भेजे गए, जिसे पहली बार 2024 के राष्ट्रपति आम चुनाव के लिए काउंटी मतदाता सूचना मार्गदर्शिका में प्रचारित किया गया था। भाषा-विशिष्ट और सुगम्यता-केंद्रित कार्यशालाओं के लिए, उन मतदाताओं को लक्षित संदेश दिए गए, जिन्होंने पहले अनुवादित सामग्री या सुगम्य सेवाओं का अनुरोध किया था और जिन्होंने पंजीकरण शपथ-पत्र के माध्यम से ईमेल पता प्रदान किया था।
- **डिजिटल आउटरीच:** कार्यशालाओं को बढ़ावा देने और ऑनलाइन फीडबैक प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करने के लिए कुल 72 सोशल मीडिया पोस्ट प्रकाशित किए गए। पोस्ट के अनुवादित संस्करण भाषा समुदायों तक पहुंचने के लिए साझा किए गए। सभी आवश्यक भाषाओं में अनुवादित एक समर्पित EAP वेबपेज लांच किया गया, जिसमें फीडबैक प्रस्तुत करने और कार्यशालाओं में भाग लेने के बारे में निर्देश दिए गए।
- **फ़ोन आउटरीच:** समुदाय-आधारित संगठनों और व्यक्तिगत नेताओं को 336 प्रत्यक्ष फोन कॉल किए गए, जिनमें उनसे उन समुदायों के साथ जानकारी साझा करने के लिए कहा गया जिनकी वे सेवा करते हैं, जिनमें भाषा और सुगम्यता संबंधी आवश्यकताएं वाले समुदाय भी शामिल हैं।
- **स्ट्रीट टीम की सहभागिता:** 10 दिनों की अवधि में, 17 आउटरीच टीमों ने 103 स्थानीय व्यवसायों का दौरा किया, अनुवादित पर्चे वितरित किए, आवश्यक भाषाओं में जानकारी प्रदान की, और समुदाय के सदस्यों के साथ सीधे संपर्क किया।
- **सामुदायिक कार्यक्रम:** Orange काउंटी मेले सहित नौ सामुदायिक साझेदार कार्यक्रमों में आउटरीच गतिविधियां आयोजित की गईं। कार्यक्रमों में, कर्मचारियों ने सामग्री वितरित की,

EAP तत्वों पर फीडबैक एकत्र किया, तथा जनता को EAP अद्यतन प्रक्रिया में भाग लेने के अवसरों के बारे में जानकारी दी।

इन संयुक्त रणनीतियों ने यह सुनिश्चित किया कि मतदाताओं को पसंदीदा भाषाओं में कई संचार चैनलों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो, जिससे EAP अद्यतन प्रक्रिया में भाग लेने के अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ी।

सार्वजनिक प्रतिक्रिया का सारांश

प्राप्त सार्वजनिक फीडबैक में EAP के पांच प्राथमिक तत्व शामिल थे।

- पहुँच सेवाएँ: सभी मतदाताओं के लिए भौतिक, आउटरीच और सेवा-संबंधी पहुँच।
- भाषा पहुँच: द्विभाषी स्टाफिंग, अनुवादित सामग्री, और भाषा अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुँच।
- सुरक्षा एवं आकस्मिक योजना: मतदान केन्द्र की सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करना।
- मतदान केंद्र और मतपत्र ड्रॉप बॉक्स: स्थान, सुविधा, सुरक्षा और दृश्यता के लिए सुझाव।
- आउटरीच एवं शिक्षा: विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से वर्ष भर मतदाताओं को सूचित करने और उनसे जुड़ने की रणनीतियाँ।

यद्यपि EAP अद्यतन प्रक्रिया के दायरे से बाहर, मतदाता पंजीकरण फ़ाइल रखरखाव, मतपत्र प्रसंस्करण, आधिकारिक प्रचार, मतदान स्थल मॉडल पर वापस लौटना, और वोट-बाय-मेल मतपत्र हस्ताक्षर सत्यापन सहित विषयों पर भी फीडबैक प्राप्त हुआ। मतदाता विकल्प अधिनियम मॉडल के संबंध में जनता की राय में भी विविधता परिलक्षित हुई, जिसमें समर्थनात्मक और आलोचनात्मक दोनों दृष्टिकोण शामिल थे।

फीडबैक का सारांश नीचे दिया गया है।

<p>घंटों के अपडेट</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रतिक्रिया में मतदान केंद्र के समय में परिवर्तन के लिए समर्थन और चिंताएं दोनों शामिल थीं, जो परिचालन दक्षता के साथ पहुँच को संतुलित करने के महत्व को दर्शाती हैं। 2020 से, OCROV ने E-10 से E-4 तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक और E-3 से E-1 तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक वोट केंद्र संचालित किए हैं। • सुझाव कामकाजी वयस्कों, अभिभावकों और छात्रों की बेहतर सेवा के लिए परिचालन समय बाद में (सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, सुबह
------------------------------	---

	<p>11 बजे से शाम 7 बजे तक, या दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक) करने का सुझाव दिया गया, जबकि अन्य लोगों ने यात्रियों की सेवा के लिए 10 प्रारंभिक मतदान दिनों (सुबह 7 बजे) के लिए एक घंटा पहले खोलने का समर्थन किया।</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रारंभिक मतदान के अंतिम तीन दिनों के दौरान शाम 6 बजे से 8 बजे तक शाम के समय को बनाए रखने में रुचि। • विभिन्न मतदाता कार्यक्रमों के लिए लचीलापन प्रदान करने हेतु विभाजित शिफ्टों का प्रस्ताव, सुबह से दोपहर तक खुला रहना तथा शाम को पुनः खुलना। • मतदाता शिक्षा को आसान बनाने और भ्रम को कम करने के लिए सभी प्रारंभिक मतदान दिनों में एक समान घंटे। • साझा क्षेत्रीय कवरेज का लाभ उठाने के लिए मतदान के समय को आसपास की काउंटियों के साथ संरेखित करें। • सप्ताहांत पर मतदान के समय को सप्ताह के दिनों से अलग लचीला बनाने का सुझाव।
<p>पहुँच सेवाएँ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • विभिन्न मतदान विधियाँ (RAVBM, कर्बसाइड, बैलट ड्रॉप बॉक्स, पॉप-अप वोटिंग) प्रदान करना जारी रखें, क्योंकि ये विकलांग, वरिष्ठ नागरिकों और परिवहन संबंधी चुनौतियों वाले मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। • मतदान केंद्रों की भौतिक पहुंच सुनिश्चित करें, जिसमें अधिक सुलभ मतदाता पार्किंग, अच्छी तरह से रोशनी वाले पैदल मार्ग, और पार्किंग से प्रवेश द्वार तक कम पैदल दूरी शामिल है। • उपलब्ध सुगम्यता उपकरणों और सेवाओं का स्पष्ट संचार, शिक्षा और प्रचार। • संकेतक, सड़क किनारे मतदान स्थल और मतपत्र चिह्नांकन उपकरणों का प्रमुख स्थान। • चुनाव अवधि से पहले जागरूकता बढ़ाने के लिए विकलांगता वकालत संगठनों, सहायता प्राप्त आवास सुविधाओं और वरिष्ठ केंद्रों के माध्यम से लक्षित पहुंच।

	<ul style="list-style-type: none"> • पहुंच की आवश्यकता वाले मतदाताओं तक पहुंचने के लिए ज्ञात उपकरणों का उपयोग करें, जैसे कि पॉप-अप मोबाइल यूनिट, ताकि मतदान के अवसर बढ़ाए जा सकें और उन मतदाताओं के लिए वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते।
<p>भाषा पहुँच</p>	<ul style="list-style-type: none"> • भाषा तक पहुंच और उचित द्विभाषी स्टाफिंग को समान भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, जिसमें अनुवादित सामग्री भी शामिल है। • K-12 स्कूलों, धर्म-आधारित समुदायों और सांस्कृतिक केंद्रों के अभिभावकों तक पहुंच का विस्तार करें ताकि भाषाई अल्पसंख्यक मतदाताओं तक पहुंचा जा सके, जो उपलब्ध भाषा सेवाओं के बारे में नहीं जानते हैं। • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहायता सहित भाषा सेवाओं को मतदान केंद्रों पर अधिक प्रमुखता से अनुवादित संकेत लगाकर अधिक दृश्यमान बनाएं। • संदर्भ मतपत्र बाइंडरों पर स्पष्ट लेबल लगाएँ और कर्मचारियों को बैज पहनाएँ जो स्पष्ट रूप से उनकी भाषा की पहचान कराएँ। • वृद्ध मतदाताओं के लिए कम तकनीकी भाषा और बड़े प्रिंट के साथ अनुवाद को सरल बनाएं।
<p>मतदाता शिक्षा एवं संपर्क</p>	<ul style="list-style-type: none"> • मतदाताओं को उनके मतदान विकल्पों के बारे में जानकारी देने तथा चुनाव प्रक्रिया में उनका विश्वास बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत तथा ऑनलाइन दोनों माध्यमों से अधिक सशक्त संपर्क प्रयास किए जाएंगे। • बड़े सामुदायिक आयोजनों (मेलों, किसानों के बाजारों) में निरंतर भागीदारी जारी रखें। • सांस्कृतिक और समुदाय-आधारित संगठनों के साथ साझेदारी जारी रखें जो कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों तक पहुंचते हैं। • शिक्षा को चुनाव अवधि तक सीमित रखने के बजाय पूरे वर्ष मतदाताओं तक पहुंच बनाना।

	<ul style="list-style-type: none"> • मतपत्र ट्रेकिंग, चुनाव सुरक्षा और चरण-दर-चरण मतदान प्रक्रिया को समझाने वाली स्पष्ट, सरल और आकर्षक सामग्री तैयार करें। • युवा मतदाताओं के बीच लोकप्रिय प्लेटफार्मों का उपयोग करते हुए युवा-केंद्रित आउटरीच के लिए सिफारिशें, काउंटी नीति प्रतिबंधों के साथ संतुलित।
सुरक्षा और आकस्मिक योजनाएँ	<ul style="list-style-type: none"> • मतपत्र श्रृंखला-कस्टडी प्रक्रियाओं के बारे में सार्वजनिक शिक्षा में वृद्धि करें, जिसमें यह भी शामिल है कि मतपत्रों को रात में OCROV तक कैसे पहुंचाया जाता है। • मतदाताओं के विश्वास और सुरक्षा में सुधार के लिए सभी मतपत्र बॉक्सों पर कैमरे लगाने पर विचार करें। • मतदाताओं को डराने-धमकाने और चुनाव प्रचार से संबंधित चिंताएं। अतिरिक्त स्टाफ प्रशिक्षण और कानून प्रवर्तन के साथ समन्वय की सिफारिश करें। • आपातस्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के लिए आकस्मिक योजनाओं के महत्व पर बल दिया गया, जिनके कारण सुविधाएं बंद हो सकती हैं। • OCROV की आकस्मिक क्षमताओं के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया, जिसमें आपात स्थिति के लिए मोबाइल वोटिंग इकाई तैनात करने की क्षमता भी शामिल है।
मतदान केंद्र और मतपत्र ड्रॉप बॉक्स	<ul style="list-style-type: none"> • मतदान केन्द्रों और मतपत्र ड्रॉप बॉक्सों को अधिक यातायात वाले, सुप्रसिद्ध स्थानों पर रखें जो सार्वजनिक परिवहन के नजदीक हों, जैसे पुस्तकालय, सामुदायिक केन्द्र और स्कूल। • प्रमुख संकेत और बेहतर ऑनलाइन स्थान मानचित्र लगाकर मतदान केन्द्रों और मतपत्र ड्रॉप बॉक्सों की दिशा में सुधार करें। • भ्रम को कम करने के लिए मतदान स्थलों को चुनावों में एक समान रखें। • सामुदायिक पहुंच और भौतिक संकेतों के माध्यम से उनके स्थान को प्रचारित करके मतपत्र ड्रॉप बॉक्स की दृश्यता में सुधार करें। • मतदाता अनुभव के आधार पर कुछ मतदान केन्द्रों के उपयोग पर पुनर्विचार करें।

California Institute of Technology (Caltech) द्वारा आयोजित 2024 मतदाता अनुभव सर्वेक्षण

Caltech ने 2024 के राष्ट्रपति आम चुनाव के संबंध में मतदाता अनुभव सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के परिणाम व्यापक थे और इन्हें OCROV द्वारा भविष्य में लिए जाने वाले निर्णयों में सहायता के लिए अनेक डेटा बिन्दुओं में से एक के रूप में उपयोग किया जाएगा। EAP को अद्यतन करने से पहले सामुदायिक चुनाव कार्य समूह के साथ परामर्श के दौरान, OCROV ने मतदाता अनुभव सर्वेक्षण के कुछ परिणाम समूह के साथ साझा किए। EAP के संबंध में, सर्वेक्षण से पता चला कि अधिकांश मतदाता अपने निवास के निकट स्थित मतदान केंद्र या मतपत्र ड्रॉप बॉक्स पर मतदान करना पसंद करते हैं, जिसे कार्यशालाओं के दौरान जनता के साथ भी साझा किया गया, जब मतदान केंद्र के स्थान और घंटों के बारे में उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई।

[मतदाता अनुभव सर्वेक्षण के पूर्ण परिणाम OCROV वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।](#)

परिशिष्ट I

2024 के राष्ट्रपति आम चुनाव में द्विभाषी CSR

चीनी

मतदान केन्द्र	चीनी लक्षित	चीनी निर्धारित
CYPRESS COMMUNITY PARK	1	4
DEERFIELD COMMUNITY CENTER	1	2
HARVARD COMMUNITY CENTER	1	1
IRVINE CIVIC CENTER	1	1
IRVINE VALLEY COLLEGE - STUDENT SERVICES CENTER, 2ND FLOOR	1	1
LAGUNA WOODS CITY HALL	1	1
NORTHWOOD COMMUNITY CENTER	1	1
कुल	7	11

कोरियन

मतदान केन्द्र	कोरियन लक्षित	कोरियन निर्धारित
AMERICAN RED CROSS BUILDING	1	1
BUENA PARK COMMUNITY CENTER	1	1
BUENA PARK LIBRARY DISTRICT, SECOND FLOOR	1	1
COURTYARD CENTER	1	1
CYPRESS COLLEGE, BLDG 18, SCHOOL OF CONT. ED.	1	1
CYPRESS COMMUNITY CENTER	1	1
CYPRESS COMMUNITY PARK	1	1
DEERFIELD COMMUNITY CENTER	1	2
DIMOND & SHANNON MORTUARY	1	1
FULLERTON COLLEGE, ROOM 844 CLASSIFIED LOUNGE	1	1
FULLERTON JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT	1	1
FULLERTON PUBLIC LIBRARY	1	1
GARDEN GROVE HOST LIONS CLUB	1	1
HARVARD COMMUNITY CENTER	1	1
IRVINE VALLEY COLLEGE - STUDENT SERVICES CENTER, 2ND FLOOR	1	1
LA PALMA COMMUNITY CENTER	1	1
LAGUNA WOODS CITY HALL	1	1

LIVING SPRING CHURCH	1	1
MOULTON PLAZA, SUITE F	1	1
NORTHWOOD COMMUNITY CENTER	1	1
PUBLIC WORKS MAINTENANCE YARD	1	1
ST. ANDREWS EPISCOPAL CHURCH	1	1
ST. PAUL LUTHERAN CHURCH	1	1
WEST ANAHEIM YOUTH CENTER	1	1
कुल	24	25

स्पेनिश

मतदान केन्द्र	स्पेनिश लक्षित	स्पेनिश निर्धारित
ALBERT D. SALGADO COMMUNITY CENTER	2	2
ANAHEIM ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT	2	3
ANAHEIM FIRST CHRISTIAN CHURCH	2	2
ANAHEIM UNION HIGH SCHOOL DISTRICT	2	2
ANNUNCIATION BYZANTINE CATHOLIC CHURCH	2	2
BROOKHURST COMMUNITY CENTER	1	1
BUENA PARK COMMUNITY CENTER	1	3
BUENA PARK LIBRARY DISTRICT, SECOND FLOOR	1	1
CENTENNIAL EDUCATION CENTER	2	2
CHAPMAN UNIVERSITY - ARGYROS FORUM	1	1
CITY CHURCH	2	2
CLIFTON C. MILLER COMMUNITY CENTER	1	1
COLUMBUS TUSTIN ACTIVITY CENTER	1	1
COSTA MESA SENIOR CENTER	1	1
COURTYARD CENTER	1	2
DELHI CENTER	2	2
DIMOND & SHANNON MORTUARY	1	1
DOWNTOWN ANAHEIM YOUTH CENTER	2	2
EL CAMINO REAL PARK	1	3
EL MODENA BRANCH LIBRARY	1	1
EL SALVADOR COMMUNITY CENTER	2	2
EL TORO BRANCH LIBRARY	1	3
EL TORO WATER DISTRICT	1	1
GARDEN GROVE HOST LIONS CLUB	1	2
GARDEN GROVE SPORTS AND RECREATION CENTER	1	2
HCA - PUBLIC HEALTH LEARNING CENTER	2	2
JEROME CENTER	2	3
KEY CAMPUS	1	1

KILLEFER PARK RECREATION CENTER	1	2
LA HABRA CITY SCHOOL DISTRICT	1	2
LA HABRA COMMUNITY CENTER	1	1
LA HABRA UNITED METHODIST CHURCH	1	3
LA SALA AUDITORIUM	1	1
LAGUNA HILLS COMMUNITY CENTER	1	1
LATINO HEALTH ACCESS	2	2
LIVING SPRING CHURCH	1	2
MCFADDEN INSTITUTE OF TECHNOLOGY	2	2
MIRIAM WARNE COMMUNITY BUILDING	1	1
MURDY COMMUNITY CENTER	1	2
ORANGE COUNTY FIRST ASSEMBLY OF GOD	1	1
ORANGE COUNTY ISLAMIC FOUNDATION (OCIF)	1	2
ORANGE COUNTY MUSICIANS UNION	2	2
ORANGE COUNTY REGISTRAR OF VOTERS	2	3
ORANGE PUBLIC LIBRARY	1	2
OUR REDEEMER CHURCH	1	1
PONDEROSA PARK FAMILY RESOURCE CENTER	1	2
PUBLIC WORKS MAINTENANCE YARD	1	1
ROOSEVELT-WALKER COMMUNITY CENTER	2	2
SADDLEBACK VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT	1	2
SAVANNA SCHOOL DISTRICT	1	2
SECOND BAPTIST CHURCH	1	1
SOUTH COAST CHRISTIAN CHURCH	1	1
SPORTS CENTER AT GRIJALVA PARK	1	2
ST. ANTHONY MARY CLARET CATHOLIC CHURCH	2	2
STANTON CENTRAL PARK	1	1
SUAVECITO POMADE HQ	2	2
TAFT AVENUE COMMUNITY CHURCH	1	1
THE ISLAMIC SOCIETY OF ORANGE COUNTY	1	1
WEST ANAHEIM YOUTH CENTER	1	1
WEST COAST ISLAMIC SOCIETY	1	1
WEST HAVEN PARK	2	2
WILLMORE ELEM. SCHOOL-LEARNING EXCHANGE BLDG	1	2
कुल	82	107

वियतनामीज़


मतदान केन्द्र	वियतनामी लक्षित	वियतनामी निर्धारित
ALBERT D. SALGADO COMMUNITY CENTER	2	2
ANAHEIM UNION HIGH SCHOOL DISTRICT	1	2
ANNUNCIATION BYZANTINE CATHOLIC CHURCH	1	1
CENTENNIAL EDUCATION CENTER	1	3
COURTYARD CENTER	2	2
CTS CEMENT MANUFACTURING CORPORATION	1	1
DIMOND & SHANNON MORTUARY	2	2
EL SALVADOR COMMUNITY CENTER	1	1
FOUNTAIN VALLEY RECREATION CENTER	2	2
FOUNTAIN VALLEY SCHOOL DISTRICT, 2ND FLOOR	1	2
FREEDOM HALL AT MILE SQUARE PARK	2	4
GARDEN GROVE HOST LIONS CLUB	2	2
GARDEN GROVE SPORTS AND RECREATION CENTER	2	3
JEROME CENTER	1	1
KEY CAMPUS	2	2
LIVING SPRING CHURCH	2	2
MCFADDEN INSTITUTE OF TECHNOLOGY	1	1
MIDWAY CITY COMMUNITY CENTER	2	2
MIRIAM WARNE COMMUNITY BUILDING	2	2
MURDY COMMUNITY CENTER	1	1
OUR REDEEMER CHURCH	2	2
PONDEROSA PARK FAMILY RESOURCE CENTER	1	1
SAVANNA SCHOOL DISTRICT	1	1
SECOND BAPTIST CHURCH	2	2
ST. ANTHONY MARY CLARET CATHOLIC CHURCH	1	1
STANTON CENTRAL PARK	2	2
STANTON COMMUNITY CENTER AT CITY HALL	1	1
SUAVECITO POMADE HQ	1	1
THE CENTER AT FOUNDERS VILLAGE	1	2
THE CONNECTION CHURCH	1	2
THE ISLAMIC SOCIETY OF ORANGE COUNTY	2	2
WEST ANAHEIM YOUTH CENTER	1	1
WEST COAST ISLAMIC SOCIETY	2	2
WEST HAVEN PARK	2	2
WESTMINSTER BRANCH LIBRARY	2	2
WESTMINSTER COMMUNITY SERVICES BUILDING	2	3
WILLMORE ELEM. SCHOOL-LEARNING EXCHANGE BLDG	2	2
कुल	57	67

चुनाव संहिता धारा 14201 द्वारा परिभाषित भाषाओं में द्विभाषी CSR वाले मतदान केंद्र

मतदान केन्द्र	भाषा
CENTENNIAL EDUCATION CENTER	फ़ारसी
FOOTHILL RANCH LIBRARY	फ़ारसी
DEERFIELD COMMUNITY CENTER	गुजराती
CANYON HILLS PRESBYTERIAN	हिंदी
CHRIST OUR REDEEMER A.M.E. CHURCH	हिंदी
IRVINE VALLEY COLLEGE - STUDENT SERVICES CENTER, 2ND FLOOR	हिंदी
OASIS SENIOR CENTER	हिंदी
ORANGE COUNTY MUSICIANS UNION	हिंदी
CHRIST OUR REDEEMER A.M.E. CHURCH	जपानीज़
KEY CAMPUS	जपानीज़
ORANGE PUBLIC LIBRARY	जपानीज़
SUAVECITO POMADE HQ	जपानीज़
FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST	जपानीज़
FOUNTAIN VALLEY RECREATION CENTER	जपानीज़
ANAHEIM FIRST CHRISTIAN CHURCH	तगलॉग
CITY GYM AND POOL	तगलॉग
FOOTHILL RANCH LIBRARY	तगलॉग
LOS ALAMITOS UNIFIED SCHOOL DISTRICT	तगलॉग
MISSION VIEJO CHURCH OF CHRIST	तगलॉग
ORANGE COUNTY MUSICIANS UNION	तगलॉग
STANTON CENTRAL PARK	तगलॉग

परिशिष्ट J

मतदान केंद्र लेआउट (उदाहरण)



परिशिष्ट K

चुनाव प्रशासन योजना का मसौदा: सार्वजनिक टिप्पणियाँ

परिचय

इस EAP के पहले मसौदे में सार्वजनिक इनपुट शामिल किया गया था, जो OCROV को ऑनलाइन फीडबैक विकल्पों, छोटे समूह सामुदायिक बैठकों और सामुदायिक कार्यशालाओं के माध्यम से प्राप्त हुआ था। प्राप्त इनपुट विधियों का विवरण और उस इनपुट के परिणाम [परिशिष्ट H](#) में शामिल हैं। इस योजना का मसौदा तैयार होने और 4 सितंबर, 2025 को प्रकाशित होने के बाद, अतिरिक्त सार्वजनिक टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गईं, जिन पर EAP के अंतिम संस्करण को अपनाने से पहले विचार किया जाएगा। यह दस्तावेज़ मसौदा चुनाव प्रशासन योजना (EAP) 2026-2029 के लिए सार्वजनिक टिप्पणी अवधि के दौरान प्राप्त टिप्पणियों का सारांश प्रदान करता है।

सार्वजनिक टिप्पणियाँ प्राप्त करने के तरीके

OCROV ने निम्नलिखित तरीकों से सार्वजनिक टिप्पणियाँ स्वीकार कीं:

- OCROV के EAP वेब पेज पर ऑनलाइन सार्वजनिक इनपुट फॉर्म, जो सार्वजनिक टिप्पणियाँ प्राप्त करने के उद्देश्य से समर्पित है।
- OCROV को भेजे गए ईमेल के माध्यम से।
- 25 सितंबर, 2025 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से।

सभी टिप्पणियों का विवरण और सार्वजनिक सुनवाई का वीडियो OCROV की वेबसाइट ocvote.gov/eap#get-involved पर पाया जा सकता है।

EAP से सीधे संबंधित न होने वाली टिप्पणियों का सारांश

मसौदा योजना पर अधिकांश सार्वजनिक टिप्पणियों में EAP के आवश्यक तत्वों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिनमें सुलभ और सुरक्षित मतदान और मतदाता शिक्षा, तथा आउटरीच शामिल हैं। इसके बजाय, कई टिप्पणीकारों ने निर्धारित मतदान स्थलों पर मतदान की वापसी की वकालत की, तथा तर्क दिया कि प्रीसिंक्ट मॉडल मतदाता विकल्प अधिनियम (VCA) चुनाव मॉडल की

तुलना में सस्ता, तेज और अधिक सुरक्षित था। यद्यपि ये टिप्पणियाँ सीधे तौर पर EAP से संबंधित नहीं हैं, फिर भी OCROV उन टिप्पणियों के जवाब में जानकारी प्रदान कर रहा है।

पारंपरिक मतदान स्थल मॉडल और एक दिन का व्यक्तिगत मतदान

मतदान स्थल मॉडल (वर्तमान VCA मॉडल के विपरीत) पर लौटने से एक दिन व्यक्तिगत रूप से मतदान होगा, मतदान स्थलों की संख्या में वृद्धि होगी, जिसके लिए मतदाताओं को विशेष रूप से नियुक्त किया जाएगा। जो मतदाता व्यक्तिगत रूप से मतदान करना चाहते हैं, उन्हें उसी दिन अपना मत डालना होगा।

राज्य कानून के विचार

- California चुनाव संहिता मतदान स्थल मॉडल पर वापसी की अनुमति देगी। 2019 में, Orange काउंटी के पर्यवेक्षक बोर्ड ने अनुमोदित प्रस्ताव द्वारा निर्देश दिया कि Orange काउंटी में भविष्य के सभी चुनाव VCA के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। उस नीतिगत दिशा को बदलने के लिए बोर्ड को एक नया प्रस्ताव अपनाना होगा जो 2019 के प्रस्ताव को निरस्त करेगा और Orange काउंटी में चुनाव की पद्धति के संबंध में नई दिशा प्रदान करेगा।
- California में सभी मतदाताओं के लिए डाक द्वारा मतदान मतपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता, काउंटी द्वारा उपयोग किए जाने वाले मतदान मॉडल से स्वतंत्र है (§3000.5). इसलिए, सभी मतदाताओं को डाक द्वारा मतदान मतपत्र भेजा जाना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2020 में प्रत्येक मतदाता को डाक द्वारा मतदान मतपत्र भेजने की आवश्यकता लागू होने से पहले, Orange काउंटी के लगभग 72% पंजीकृत मतदाताओं ने डाक द्वारा मतपत्र प्राप्त करने का अनुरोध किया था।
- वर्ष 2026 में विधानसभा विधेयक 1249 के लागू होने के साथ, जो काउंटी VCA के अनुसार अपने चुनाव नहीं कराएंगे, उन्हें चुनाव दिवस से पहले शनिवार को एक स्थान पर कम से कम छह घंटे के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रारंभिक मतदान की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

लागत

- 2019 में जब काउंटी की मतदान प्रणाली और चुनाव उपकरणों को प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी, तब VCA को अपनाकर, OCROV ने लगभग 200 मतदान केंद्रों के लिए नई मतदान प्रणाली और चुनाव उपकरण खरीदने के लिए करदाताओं के कम पैसे खर्च किए, जबकि उसने लगभग 1,000 मतदान स्थलों को सुसज्जित करने के लिए इतना पैसा खर्च किया होता। OCROV ने 2018 के आम चुनाव के दौरान 984 मतदान स्थलों का संचालन किया।
- प्रत्येक चुनाव में चार- और 11-दिवसीय मतदान केंद्रों पर अस्थायी काउंटी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए OCROV की श्रम लागत, जिनका व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया जाता है, आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, और कम से कम दो दिनों का प्रशिक्षण पूरा किया जाता है, OCROV की पूर्व प्रथा की तुलना में अधिक महंगी साबित हुई है, जिसमें एक दिवसीय मतदान केंद्रों पर कर्मचारियों के लिए लगभग तीन घंटे का प्रशिक्षण पूरा करने वाले स्वयंसेवकों को एक छोटा सा वजीफा दिया जाता था। हालांकि राज्य कानून यह निर्धारित नहीं करता है कि काउंटी अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करें या स्वयंसेवकों का उपयोग करें या उन्हें कितने घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त हो, OCROV का मानना है कि अस्थायी काउंटी कर्मचारियों को नियुक्त करने और प्रशिक्षित करने में किए गए निवेश के परिणामस्वरूप मतदाताओं को बेहतर और अधिक सुरक्षित सेवाएं प्राप्त हुई हैं।
- यदि Orange काउंटी ने मतदान स्थल चुनाव मॉडल को अपनाया, तो OCROV को अधिक संख्या में मतदान स्थलों पर मतदाताओं की सेवा के लिए अतिरिक्त मतदान उपकरण खरीदने की आवश्यकता होगी। यह निर्धारित करने के लिए आगे विश्लेषण की आवश्यकता होगी कि Orange काउंटी के मतदाताओं, जो व्यक्तिगत रूप से मतदान करना पसंद करते हैं, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितने मतदान स्थलों की आवश्यकता होगी। यह विश्लेषण तब पूरा हो जाएगा जब पर्यवेक्षक बोर्ड मतदान स्थल मॉडल का उपयोग करके भविष्य के चुनाव आयोजित करने के लिए एक प्रस्ताव को अपनाने पर विचार करेगा।

- चाहे OCROV मतदान स्थल मॉडल के तहत काम करे या VCA के तहत, गैर-अनंतिम, व्यक्तिगत मतपत्रों की गणना के लिए आवश्यक समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी मॉडल में, व्यक्तिगत मतपत्र चुनाव की रात को केंद्रीय कार्यालय में वापस भेज दिए जाते हैं और उसी रात उनकी गणना की जाती है।
- चूंकि मतपत्र सभी सक्रिय पंजीकृत मतदाताओं को डाक द्वारा भेजे जाने चाहिए, चाहे मतदान का कोई भी मॉडल इस्तेमाल किया गया हो, इसलिए डाक द्वारा मतदान मतपत्रों को संसाधित करने में लगने वाला समय भी चुनाव मॉडल का परिणाम नहीं है। डाक द्वारा मतदान मतपत्रों के प्रसंस्करण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं:
 - California द्वारा सभी काउंटियों के लिए निर्धारित मतदाताओं के लिए डाक द्वारा मतदान हेतु एक समान समय-सीमा, ताकि वे गिनती के लिए पात्र हो सकें
 - जब मतदाता अपना मतदान किया हुआ डाक-द्वारा-मतपत्र लौटाते हैं
 - California मतदाताओं को उनके डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र पर हस्ताक्षर संबंधी चुनौती को ठीक करने के लिए कितने दिन का समय देता है
 - किसी काउंटी के पास डाक द्वारा मतदान मतपत्रों को संसाधित करने के लिए आवश्यक सुविधा स्थान, उपकरण और कर्मचारी संसाधन

चूंकि काउंटी ने VCA को अपनाया है, इसलिए OCROV ने 2018 के आम चुनाव को प्रमाणित करने से पहले एक को छोड़कर सभी राज्यव्यापी आम चुनावों को प्रमाणित किया है, जो मतदान स्थलों का उपयोग करके आयोजित अंतिम राज्यव्यापी चुनाव था।

2018 के आम चुनाव को चुनाव दिवस के 24 दिन बाद प्रमाणित किया गया। 2020 के आम चुनाव को चुनाव दिवस के 22 दिन बाद प्रमाणित किया गया था और 2022 के आम चुनाव को चुनाव दिवस के 23 दिन बाद प्रमाणित किया गया था।

इसका अपवाद 2024 का आम चुनाव था, जब राज्य विधानमंडल ने एक विधेयक पारित किया था, जिसके तहत काउंटियों को चुनाव के दिन से 28 दिन से पहले चुनाव को प्रमाणित करने से रोक दिया गया था। यदि यह कानून लागू नहीं किया गया होता, तो OCROV को चुनाव के 22 दिन बाद चुनाव परिणामों को प्रमाणित करना पड़ता।

सुरक्षा

- VCA मॉडल को मतदान स्थल मॉडल की तुलना में अधिक मतदान स्थानों की आवश्यकता नहीं होती है; इसलिए, OCROV अधिक चुनिंदा रूप से मतदान स्थानों का चयन करने में सक्षम है। इससे पार्किंग और सुगम्यता के साथ सुरक्षित स्थान चुनने की क्षमता मिलती है। मतदान स्थल मॉडल के लिए मतदान स्थलों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता होगी, जिसके लिए कम आदर्श स्थानों का उपयोग करना पड़ सकता है।
- VCA के अंतर्गत रणनीतिक रूप से निर्धारित मतदान स्थलों की कम संख्या OCROV को अधिक आसानी से प्रबंधन करने तथा मतपत्र वापसी की ट्रैकिंग के बेहतर तरीकों का उपयोग करने की अनुमति देती है, जिसमें वापस आए मतपत्रों की वास्तविक समय निगरानी भी शामिल है।

VCA मॉडल का समर्थन

OCROV को VCA मॉडल के प्रति सामान्य समर्थन व्यक्त करने वाली प्रतिक्रिया भी प्राप्त हुई। समर्थकों ने इसकी पहुंच, सुविधा, बहुभाषीय भाषा समर्थन और बढ़ी हुई सुरक्षा जैसी खूबियों पर प्रकाश डाला।

EAP से संबंधित टिप्पणियों का सारांश

EAP के लिए टिप्पणियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया विशेष रूप से EAP के आवश्यक तत्वों पर जनता से सुझाव प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है, जिसमें सुलभ और सुरक्षित मतदान तथा मतदाता शिक्षा और आउटरीच शामिल हैं। OCROV को मसौदा योजना के संबंध में कुछ फीडबैक प्राप्त हुआ, जिसका सारांश यहां दिया गया है।

मतदान केंद्र के समय

मसौदा योजना में चुनाव दिवस से 10 दिन पहले मतदान केन्द्रों के संचालन के घंटों में परिवर्तन शामिल है। सामुदायिक कार्यशालाओं के दौरान प्राप्त फीडबैक तथा ऐतिहासिक मतदान केन्द्र उपयोग के आधार पर समय को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। वोट सेंटर के घंटों के संबंध में सार्वजनिक टिप्पणियां आम तौर पर प्रस्तावित नए घंटों के समर्थन में थीं।

अतिरिक्त टिप्पणियां

मतदान केन्द्र के लेआउट को अद्यतन करने के बारे में एक टिप्पणी दी गई, जिसमें पंक्ति में प्रतीक्षा करने के बजाय डाक द्वारा मतदान मतपत्रों को डालने की सुविधा शामिल की गई। OCROV स्वीकार करता है कि यह मसौदा EAP के नमूना लेआउट में शामिल नहीं है, लेकिन यह वोट सेंटर कर्मचारियों के प्रशिक्षण का एक हिस्सा है।

Orange काउंटी में प्रयुक्त RAVBM प्रणाली के संबंध में टिप्पणी प्रदान की गई। OCROV का जवाब है कि वर्तमान RAVBM प्रणाली California में उपयोग के लिए प्रमाणित कुछ ही RAVBM प्रणालियों में से एक है, तथा पिछले चुनावों में भी इसने अच्छा काम किया है, लेकिन OCROV इस प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देना जारी रखेगा।

लैटिनो समुदाय के संबंध में एक टिप्पणी की गई, जिसमें स्पेनिश भाषा में मतदान करने के बारे में अधिक जानकारी देने का सुझाव दिया गया। OCROV स्पेनिश भाषी समुदाय तक पहुंच को बेहतर बनाने के तरीकों का निर्धारण करने के लिए अपने सामुदायिक भागीदारों के साथ परामर्श करना जारी रखेगा। यह सहयोग पहले से ही EAP और [VEOP](#) में विस्तृत रूप से वर्णित है।

मतपत्र ड्रॉप बॉक्स के स्थान के संबंध में टिप्पणी की गई, जिसमें कहा गया कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में थे जहां रोशनी नहीं थी, कुछ पेड़ों के नीचे थे, आदि। इसके जवाब में, OCROV ऐसे स्थानों को खोजने का प्रयास करता है जो अच्छी तरह से प्रकाशित हों, मतदाताओं की स्पष्ट दृष्टि में हों, तथा EAP में उल्लिखित आवश्यक चयन मानदंडों को पूरा करते हों। इन सभी आवश्यकताओं में संतुलन स्थापित करने से बेहतर प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। यदि OCROV उपयोग के लिए उपलब्ध विशिष्ट मतपत्र ड्रॉप बॉक्सों के लिए अधिक आदर्श स्थानों की पहचान कर सकता है, तो OCROV आवश्यक चयन मानदंडों को संतुलित करते हुए, उन स्थानों का उपयोग करने का प्रयास करेगा।

विस्तृत सार्वजनिक टिप्पणियाँ

OCROV ने EAP का मसौदा जारी होने के बाद प्राप्त प्रत्येक सार्वजनिक टिप्पणी को उपलब्ध करा दिया है। इसमें सार्वजनिक सुनवाई का वीडियो, तथा OCROV की वेबसाइट और ईमेल के माध्यम से प्राप्त सभी टिप्पणियाँ शामिल हैं।

[विस्तृत सार्वजनिक टिप्पणियाँ यहाँ देखें.](#)

परिशिष्ट L

चुनाव संहिता संदर्भ (जानबूझकर अनुवादित नहीं किए गए कोड)

§303.3

“RAVBM system” means a mechanical, electromechanical, or electronic system and its software that is used for the sole purpose of marking an electronic Vote-By-Mail ballot for a voter who shall print the paper cast vote record to be submitted to the elections official. A RAVBM system shall not be connected to a voting system at any time.

§2550(b)

An electronic poll book shall not be used unless it has been certified by the Secretary of State.

§3000.5

(a) Notwithstanding any other law, for each election, the elections official shall, no later than 29 days before the day of the election, begin mailing the materials specified in Section 3010 to every registered voter. The elections official shall have five days to mail a ballot to each person who is registered to vote on the 29th day before the day of the election and five days to mail a ballot to each person who is subsequently registered to vote. The elections official shall not discriminate against any region or precinct in choosing which ballots to mail first within the prescribed five-day mailing period.

(b) The distribution of vote by mail ballots to all registered voters does not prevent a voter from voting in person at a polling place, vote center, or other authorized location.

(c) Consistent with paragraph (2) of subdivision (a) of Section 2226, this section is not intended and shall not be construed to authorize a voter with an inactive voter registration status to receive a vote by mail ballot for an election.

§3016.7

The county elections official shall permit any voter to cast a ballot using a certified RAVBM system, regardless of whether the voter is a voter with disabilities or a military or overseas voter.

§4005(a)(1)(a)

At least two ballot dropoff locations are provided within the jurisdiction where the election is held or the number of ballot dropoff locations are fixed in a manner so that there is at least one ballot dropoff location provided for every 15,000 registered voters within the jurisdiction where the election is held, as determined on the 88th day before the day of the election, whichever results in more ballot

dropoff locations. For purposes of this subparagraph, a vote center that includes an exterior ballot drop box counts only as a single ballot dropoff location. Ballot dropoff locations shall comply with the regulations adopted pursuant to subdivision (b) of Section 3025.

§4005(a)(1)(B)

A ballot dropoff location provided for under this section consists of a secure, accessible, and locked ballot box located as near as possible to established public transportation routes and that is able to receive voted ballots. All ballot dropoff locations shall be open at least during regular business hours beginning not less than 28 days before the day of the election, and on the day of the election. At least one ballot dropoff location shall be an accessible, secured, exterior drop box that is available for a minimum of 12 hours per day including regular business hours.

§4005(a)(2)(A)(v)

Vote a regular, provisional, or replacement ballot using accessible voting equipment that provides for a private and independent voting experience.

§4005(a)(2)(B)

Each vote center shall have at least three voting machines that are accessible to voters with disabilities.

§4005(a)(3)

On the day of the election, from 7 a.m. to 8 p.m., inclusive, and on each of the three days before the election, for a minimum of eight hours per day, at least one vote center is provided for every 10,000 registered voters within the jurisdiction where the election is held, as determined on the 88th day before the day of the election. At least 90 percent of the number of vote centers required by this subparagraph shall be open for all four days during the required times. Up to 10 percent of the number of vote centers required by this subparagraph may be open for less than four days if at least one vote center is provided for every 10,000 registered voters on each day.

§4005(a)(3)(A)

On the day of the election, from 7 a.m. to 8 p.m., inclusive, and on each of the three days before the election, for a minimum of eight hours per day, at least one vote center is provided for every 10,000 registered voters within the jurisdiction where the election is held, as determined on the 88th day before the day of the election. At least 90 percent of the number of vote centers required by this subparagraph shall be open for all four days during the required times. Up to 10 percent of the number of vote centers required by this subparagraph may be open for less than four days if at least one vote center is provided for every 10,000 registered voters on each day.

§4005(a)(4)

Beginning 10 days before the day of the election and continuing daily up to and including the fourth day before the election, for a minimum of eight hours per day, at least one vote center is provided for every 50,000 registered voters within the jurisdiction where the election is held, as determined on the 88th day before the day of the election.

§4005(a)(4)(A)

Beginning 10 days before the day of the election and continuing daily up to and including the fourth day before the election, for a minimum of eight hours per day, at least one vote center is provided for every 50,000 registered voters within the jurisdiction where the election is held, as determined on the 88th day before the day of the election.

§4005(a)(4)(D)

The vote centers provided under this section are equitably distributed across the county so as to afford maximally convenient options for voters and are established at accessible locations as near as possible to established public transportation routes. The vote centers shall be equipped with voting units or systems that are accessible to individuals with disabilities and that provide the same opportunity for access and participation as is provided to voters who are not disabled, including the ability to vote privately and independently in accordance with Sections 12280 and 19240.

§4005(a)(6)(B)(i)

If a vote center is located in, or adjacent to, a precinct, census tract, or other defined geographical subsection required to establish language requirements under subdivision (c) of Section 12303 or Section 203 of the federal Voting Rights Act of 1965 (52 U.S.C. Sec. 10101 et seq.), or if it is identified as needing language assistance through the public input process described in clause (ii), the county elections official shall ensure that the vote center is staffed by election board members who speak the required language. If the county elections official is unable to recruit election board members who speak the required language, alternative methods of effective language assistance shall be provided by the county elections official.

§4005(a)(8)(B)(ii)

A list of the ballot dropoff locations and vote centers established pursuant to this section, including the dates and hours they are open. The list shall also be posted on the internet website of the county elections official in a format that is accessible for people with disabilities pursuant to Section 11135 of the Government Code.

§4005(a)(9)(A)

The county elections official establishes a language accessibility advisory committee that is comprised of representatives of language minority communities.

The committee shall be established and hold its first meeting before the public meeting required by clause (i) of subparagraph (A) of paragraph (10).

§4005(a)(10)(B)

The county elections official, when developing the draft plan for the administration of elections conducted pursuant to this section, considers, at a minimum, all of the following:

- (i) Vote center and ballot dropoff location proximity to public transportation.
- (ii) Vote center and ballot dropoff location proximity to communities with historically low Vote-By-Mail usage.
- (iii) Vote center and ballot dropoff location proximity to population centers.
- (iv) Vote center and ballot dropoff location proximity to language minority communities.
- (v) Vote center and ballot dropoff location proximity to voters with disabilities.
- (vi) Vote center and ballot dropoff location proximity to communities with low rates of household vehicle ownership.
- (vii) Vote center and ballot dropoff location proximity to low-income communities.
- (viii) Vote center and ballot dropoff location proximity to communities of eligible voters who are not registered to vote and may need access to same day voter registration.
- (ix) Vote center and ballot dropoff location proximity to geographically isolated populations, including Native American reservations.
- (x) Access to accessible and free parking at vote centers and ballot dropoff locations.
- (xi) The distance and time a voter must travel by car or public transportation to a vote center and ballot dropoff location.
- (xii) The need for alternate methods for voters with disabilities for whom Vote-By-Mail ballots are not accessible to cast a ballot.
- (xiii) Traffic patterns near vote centers and ballot dropoff locations.
- (xiv) The need for mobile vote centers in addition to the number of vote centers established pursuant to this section.

(xv) Vote center location on a public or private university or college campus.

§4005(a)(10)(I)(i)

(I) The plan for the administration of elections conducted pursuant to this section, includes all of the following:

(i) A voter education and outreach plan that is approved by the Secretary of State and that includes all of the following:

(I) A description of how the county elections official will use the media, including social media, newspapers, radio, and television that serve language minority communities for purposes of informing voters of the upcoming election and promoting the toll-free voter assistance hotline.

(II) A description of how the county elections official will use the media, including social media, newspapers, radio, and television for purposes of informing voters of the availability of a Vote-By-Mail ballot in an accessible format and the process for requesting such a ballot.

(III) A description of how the county elections official will have a community presence to educate voters regarding the provisions of this section.

(IV) A description of the accessible information that will be publicly available on the accessible internet website of the county elections official.

(V) A description of the method used by the county elections official to identify language minority voters.

(VI) A description of how the county elections official will educate and communicate the provisions of this section to the public, including:

(ia) Communities for which the county is required to provide voting materials and assistance in a language other than English under subdivision (a) of Section 14201 and the federal Voting Rights Act of 1965 (52 U.S.C. Sec. 10101 et seq.). The county elections official shall hold at least one bilingual voter education workshop for each language in which the county is required to provide voting materials and assistance in a language other than English under subdivision (a) of Section 14201 and the federal Voting Rights Act of 1965 (52 U.S.C. Sec. 10101 et seq.).

(ib) The disability community, including organizations and individuals that advocate on behalf of, or provide services to, individuals with disabilities. The county elections official shall hold at least one voter education workshop to increase accessibility and participation of eligible voters with disabilities.

(VII) A description of how the county will spend the necessary resources on voter education and outreach to ensure that voters are fully informed about the election. This description shall include information about the amount of money the county plans to spend on voter education and outreach activities under the plan, and how that compares to the amount of money spent on voter education and outreach in recent similar elections in the same jurisdiction.

(VIII) At least one public service announcement in the media, including newspapers, radio, and television, that serve English-speaking citizens for purposes of informing voters of the upcoming election and promoting the toll-free voter assistance hotline. Outreach made under this subclause shall include access for voters who are deaf or hard of hearing and voters who are blind or visually impaired.

(IX) At least one public service announcement in the media, including newspapers, radio, and television, that serve non-English-speaking citizens for each language in which the county is required to provide voting materials and assistance under subdivision (a) of Section 14201 and the federal Voting Rights Act of 1965 (52 U.S.C. Sec. 10101 et seq.) for purposes of informing voters of the upcoming election and promoting the toll-free voter assistance hotline.

(X) At least two direct contacts with voters for purposes of informing voters of the upcoming election and promoting the toll-free voter assistance hotline. The two direct contacts are in addition to any other required contacts, including, but not limited to, sample ballots and the delivery of Vote-By-Mail ballots.

(ia) After the first six statewide elections conducted pursuant to this section, a county elections official may make one direct contact if the county elections official does both of the following:

(la) Revises the plan for the administration of elections pursuant to subparagraph (G) to explain how at least half of the funds saved from not making a second direct contact will be used on targeted outreach to historically underrepresented voters.

(lb) Spends at least half of the funds saved from not making a second direct contact on targeted outreach to historically underrepresented voters.

(ib) If direct contact is made by mail, the county elections official must mail at least one copy of each direct contact to voters with the same surname and postal address, in each language requested.

(ic) At least one direct contact shall be made with voters during an election that is conducted either in a jurisdiction with fewer than 30,000 registered voters or conducted pursuant to subdivision (b) within 30 days of a regularly scheduled statewide election.

(id) Notwithstanding sub-subclause (ia), a county elections official shall make at least two direct contacts with a voter for the first six statewide elections that the voter is registered to vote in the county.

§4005(a)(10)(I)(i)(I)

A description of how the county elections official will use the media, including social media, newspapers, radio, and television that serve language minority communities for purposes of informing voters of the upcoming election and promoting the toll-free voter assistance hotline.

§4005(a)(10)(I)(i)(II)

A description of how the county elections official will use the media, including social media, newspapers, radio, and television for purposes of informing voters of the availability of a Vote-By-Mail ballot in an accessible format and the process for requesting such a ballot.

§4005(a)(10)(I)(i)(III)

A description of how the county elections official will have a community presence to educate voters regarding the provisions of this section.

§4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ia)

Communities for which the county is required to provide voting materials and assistance in a language other than English under subdivision (a) of Section 14201 and the federal Voting Rights Act of 1965 (52 U.S.C. Sec. 10101 et seq.). The county elections official shall hold at least one bilingual voter education workshop for each language in which the county is required to provide voting materials and assistance in a language other than English under subdivision (a) of Section 14201 and the federal Voting Rights Act of 1965 (52 U.S.C. Sec. 10101 et seq.).

§4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ib)

The disability community, including organizations and individuals that advocate on behalf of, or provide services to, individuals with disabilities. The county elections official shall hold at least one voter education workshop to increase accessibility and participation of eligible voters with disabilities.

§4005(a)(10)(I)(i)(VII)

A description of how the county will spend the necessary resources on voter education and outreach to ensure that voters are fully informed about the election. This description shall include information about the amount of money the county plans to spend on voter education and outreach activities under the plan, and how that compares to the amount of money spent on voter education and outreach in recent similar elections in the same jurisdiction.

§4005(a)(10)(I)(i)(VIII)

At least one public service announcement in the media, including newspapers, radio, and television, that serve English-speaking citizens for purposes of informing voters of the upcoming election and promoting the toll-free voter assistance hotline. Outreach made under this subclause shall include access for voters who are deaf or hard of hearing and voters who are blind or visually impaired.

§4005(a)(10)(I)(i)(IX)

At least one public service announcement in the media, including newspapers, radio, and television, that serve non-English-speaking citizens for each language in which the county is required to provide voting materials and assistance under subdivision (a) of Section 14201 and the federal Voting Rights Act of 1965 (52 U.S.C. Sec. 10101 et seq.) for purposes of informing voters of the upcoming election and promoting the toll-free voter assistance hotline.

§4005(a)(10)(I)(i)(X)

At least two direct contacts with voters for purposes of informing voters of the upcoming election and promoting the toll-free voter assistance hotline. The two direct contacts are in addition to any other required contacts, including, but not limited to, sample ballots and the delivery of Vote-By-Mail ballots.

§4005(a)(10)(I)(ii)

A description of how a voter with disabilities may request and receive a blank Vote-By-Mail ballot and, if a replacement ballot is necessary, a blank replacement ballot that a voter with disabilities can mark privately and independently.

§4005(a)(10)(I)(iii)

A description of how the county elections official will address significant disparities in voter accessibility and participation identified in the report required by subdivision (g).

§4005(a)(10)(I)(iv)

A description of the methods and standards that the county elections official will use to ensure the security of voting conducted at vote centers.

§4005(a)(10)(I)(v)

Information about estimated short-term and long-term costs and savings from conducting elections pursuant to this section as compared to recent similar elections in the same jurisdiction that were not conducted pursuant to this section.

§4005(a)(10)(I)(vi)

To the extent available at the time of publication, information on all of the following:

- (I) The total number of vote centers to be established.
- (II) The total number of ballot dropoff locations to be established.
- (III) The location of each vote center.
- (IV) The location of each ballot dropoff location and whether it is inside or outside.
- (V) A map of the locations of each vote center and ballot dropoff location.
- (VI) The hours of operation for each vote center.
- (VII) The hours of operation for each ballot dropoff location.
- (VIII) The security and contingency plans that would be implemented by the county elections official to do both of the following:
 - (ia) Prevent a disruption of the vote center process.
 - (ib) Ensure that the election is properly conducted if a disruption occurs.
- (IX) The number of election board members and the number of bilingual election board members and the languages spoken.
- (X) The services provided to voters with disabilities, including, but not limited to, the type and number of accessible voting machines and reasonable modifications at each vote center.
- (XI) The design, layout, and placement of equipment inside each vote center that protects each voter's right to cast a private and independent ballot.

§4005(a)(10)(I)(vi)(VIII)

The security and contingency plans that would be implemented by the county elections official to do both of the following:

- (ia) Prevent a disruption of the vote center process.
- (ib) Ensure that the election is properly conducted if a disruption occurs.

§4005(a)(10)(I)(vi)(IX)

The number of election board members and the number of bilingual election board members and the languages spoken.

§4005(a)(10)(I)(vii)

A toll-free voter assistance hotline that is accessible to voters who are deaf or hard of hearing, and that is maintained by the county elections official that is operational no later than 29 days before the day of the election until 5 p.m. on the day after the election. The toll-free voter assistance hotline shall provide assistance to voters in all languages in which the county is required to provide voting materials and assistance under subdivision (a) of Section 14201 and the federal Voting Rights Act of 1965 (52 U.S.C. Sec. 10101 et seq.).

§4005(b)(2)

On the day of the election, from 7 a.m. to 8 p.m., inclusive, at least one vote center is provided for every 30,000 registered voters. If the jurisdiction is not wholly contained within the county, the county elections official shall make a reasonable effort to establish a vote center within the jurisdiction where the special election is held.

§4005(b)(3)

Not less than 10 days before the day of the election, for a minimum of eight hours per day, at least one vote center is provided for every 60,000 registered voters. If the jurisdiction is not wholly contained within the county, the county elections official shall make a reasonable effort to establish a vote center within the jurisdiction where the special election is held.

§4005(g)(1)(A)

Within six months of each election conducted pursuant to this section, the Secretary of State shall submit a final report to the Legislature on all of the following information by categories of race, ethnicity, language preference, age, gender, disability, permanent Vote-By-Mail status, historical polling place voters, political party affiliation, and language minorities as it relates to the languages required under subdivision (a) of Section 14201 and Section 203 of the federal Voting Rights Act of 1965 (52 U.S.C. Sec. 10101 et seq.):

- (i) Voter turnout.
- (ii) Voter registration.
- (iii) Ballot rejection rates.
- (iv) Reasons for ballot rejection.
- (v) Provisional ballot use.
- (vi) Accessible Vote-By-Mail ballot use.
- (vii) The number of votes cast at each vote center.

- (viii) The number of ballots returned at ballot dropoff locations.
- (ix) The number of ballots returned by mail.
- (x) The number of persons who registered to vote at a vote center.
- (xi) Instances of voter fraud.
- (xii) Any other problems that became known to the county elections official or the Secretary of State during the election or canvass.

§12280

When designating polling places, the elections official shall undertake necessary measures in the locating of polling places to ensure that polling places meet the guidelines promulgated by the Secretary of State for accessibility by the physically handicapped.

§12303(b)

It is the intent of the Legislature that non-English-speaking citizens, like all other citizens, should be encouraged to vote. Therefore, appropriate efforts should be made to minimize obstacles to non-English-speaking citizens voting without assistance.

§14282(d)

(1) A voter with a disability may appear outside the polling place and vote a regular ballot. The person may vote the ballot in a place that is as near as possible to the polling place and that is accessible to people with disabilities. A precinct board member shall take a regular ballot or ballot marking device to that person, qualify that person to vote, and return the voted ballot to the polling place.

(2) A precinct board member may satisfy paragraph (1) by only bringing a regular ballot outside to the voter if the county does not have the capability to bring the ballot marking device outside of the polling place.

(3) Signage shall be posted outside the polling place and adjacent to the area where the voter may appear to vote indicating that the option is available for a voter with a disability to vote there. The polling place shall establish a method for a voter with a disability to contact a precinct board member in order to vote outside the polling place, such as a posted phone number, doorbell device, or the stationing of a precinct board member outside the polling place.

§15000

No later than seven days prior to any election conducted pursuant to this code, the elections official shall conduct a test or series of tests to ensure that every device used to tabulate ballots accurately records each vote. The exact methods

employed in this test shall conform to the voting procedures for the specific voting systems, as adopted by the Secretary of State.

§19200

The Secretary of State shall not approve any voting system, or part of a voting system, unless it fulfills the requirements of this code and the regulations of the Secretary of State.

§19207

The governing board may adopt for use at elections any kind of voting system, any combination of voting systems, or any combination of a voting system and paper ballots, provided that the voting system or systems involved have been certified or conditionally approved by the Secretary of State or specifically authorized by law pursuant to Section 19209.